

## पीएम मोदी ने चेन्नई में खेलो इण्डिया का किया उद्घाटन, बोले- यह एक भारत-श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना का प्रदर्शन

एजेंसी। नई दिल्ली मोदी ने कहा कि भारत में खेलों के विकास में तमिलनाडु का विशेष स्थान रहा है। ये चौंपियंस पैदा करने वाली धरती है। इस भूमि ने टेनिस में नरदस को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि इसी धरती से हॉकी टीम के कप्तान भास्करन निकले। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि यहां एकत्र हुए मेरे युवा मित्र एक युवा भारत, एक नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी ऊर्जा और उत्साह हमारे देश को खेल की दुनिया में नई ऊंचाइयों पर



ले जा रही है। मैं देश भर से चेन्नई आए सभी एथलीटों और खेल प्रेमियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब मिलकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि भारत में खेलों के विकास में तमिलनाडु का विशेष स्थान रहा है। ये चौंपियंस पैदा करने वाली धरती है। इस भूमि ने टेनिस में नाम रोशन करने वाले अमृतराज

ब्रदर्स को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि इसी धरती से हॉकी टीम के कप्तान भास्करन निकले। जिनकी कप्तानी में भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, प्रज्ञानानंद और पैरालंपिक चौंपियन मरियप्पन भी तमिलनाडु की ही देन हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स में अब तक

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में भी भारत ने इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया। ये अचनाक ही नहीं हुआ है, देश के खिलाड़ी की मेहनत और जज्बे में पहले भी कमी नहीं थी, लेकिन बीते 10 वर्षों में उसे नया आत्मविश्वास मिला है। कदम-कदम पर सरकार का साथ मिला है। पहले खेलों में भी जिस प्रकार से खेल होते थे, उनको हमने बंद किया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर वीरा मंगई वेलु नचियार को बनाया गया है। वास्तविक जीवन के व्यक्तित्व को शुभंकर बनाना अभूतपूर्व है।

## योगी ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को यादगार बनाने के लिए निर्देश दिए

संवाददाता। अयोध्या योगी आदित्यनाथ ने आहुति देकर उत्तर प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन-पूजन के उपरांत राम मंदिर भी पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने प्राण-प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद शुक्रवार को पूजन में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां दिव्य-भव्य मंदिर का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर पूरे मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। यहां विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के संरक्षक दिनेश से व्यवस्था से जुड़ी जानकारी ली। फिर विहिप, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ ही स्थानीय प्रशासन-पुलिस के अधिकारियों



को चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था रखने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे और यहां सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किया और 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के बालरूप विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को यादगार बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन के साथ तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया और

समीक्षा बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री रामलला के बाल रूप विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा के बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम में देश-विदेश से अतिथियों का आगमन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस समारोह में भारत के सभी प्रांतों से संत, धर्माचार्य, गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी। उन्होंने कहा कि इस समारोह में सहभागिता करने आ रहे अति विशिष्ट जनों की सुरक्षा व सम्मान के पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक वीवीआईपी के साथ एक लाइजनिंग अधिकारी की तैनाती की जाए। उन्होंने कहा कि इस

कार्य में ऐसे लोगों की तैनाती की जाए, जो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ, अयोध्या के पौराणिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व से सुपरिचित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए उनसे सतत संवाद बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सक्रिय कॉल सेंटर को 24 घंटे चालू रखा जाए। उन्होंने कहा कि 22ए23 जनवरी के बाद हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का अयोध्या में आगमन होगा। उन्होंने कहा कि हर कोई रामलला के दर्शन करने को उत्सुक है। उन्होंने कहा कि भारत के सभी राज्यों से लोग आएंगे, ऐसे में आगामी छह माह की स्थिति का आकलन करते

## राम मंदिर अयोध्या माथे पर तिलक और मधुर मुस्काहन... प्राण-प्रतिष्ठा से पहले सामने आई रामलला की पूर्ण तस्वीर

संवाददाता। अयोध्या राम लला की मूर्ति में ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा, स्वस्तिक और कमला नयन सहित विभिन्न धार्मिक प्रतीक हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में पांच साल के भगवान राम को हाथ में सुनहरा धनुष-बाण लिए खड़े देखा जा सकता है। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की श्राण प्रतिष्ठा से पहले राम लला की मूर्ति के चेहरे का अनावरण किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह प्रभुमंत्रि नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। राम लला की मूर्ति में ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा, स्वस्तिक और कमला नयन सहित विभिन्न धार्मिक प्रतीक हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में पांच साल के भगवान राम को हाथ में सुनहरा धनुष-बाण लिए खड़े देखा जा सकता है। तस्वीरें उस वर्कशॉप की हैं जहां यह मूर्ति मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई थी। 22 जनवरी को दोपहर 12.30 बजे प्राण-प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर ही मूर्ति की आंखें खोली जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी शरद शर्मा ने कहा कि काले पत्थर से बनी इस प्रतिमा की आंखें पीले कपड़े से ढकी हुई हैं और गुलाब के फूलों की माला से सजी हुई हैं। वीएचपी की ओर से जारी तस्वीर में रामलला खड़ी मुद्रा में हैं। गुरुवार दोपहर को, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले, भगवान राम की नई मूर्ति को राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रखा गया। बीजेपी प्रवक्ता सचिव पात्रा ने रामलला के खुले चेहरे की फोटो शेयर करते हुए लिखा, भगवान श्री राम की खूबसूरत फोटो दिल को खुशी से भर देती है। एक सप्ताह पहले 16 जनवरी को शुरू हुआ प्राण-प्रतिष्ठा समारोह शुक्रवार को चौथे दिन में प्रवेश कर गया। पूजा के लिए पवित्र अग्नि की स्थापना आज की जाएगी। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई भगवान राम की बाल रूप की 51 इंच की मूर्ति को बुधवार रात मंदिर में लाया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार, यह प्रार्थना मंत्रोच्चार के बीच किया गया। दीक्षित ने कहा कि श्रद्धा संकल्प ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा, 'इसके अलावा अन्य अनुष्ठान भी किए गए। ब्राह्मणों को वस्त्र भी दिए गए और सभी को काम सौंपा गया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक समारोह में भाग लेंगे, जिसे अगले दिन जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव



कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में टीएमसी एजेंसी। कालकता मुर्शिदाबाद जिला नेतृत्व के साथ तृणमूल के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुर्शिदाबाद जिले में तीन लोकसभा सीटें हैं - जंगीपुर, बेरहामपुर और मुर्शिदाबाद। 2019 के चुनाव में, कांग्रेस ने बेरहामपुर सीट जीती, जबकि अन्य दो सीटें टीएमसी ने जीतीं। कांग्रेस को नुकसान होगा क्योंकि पार्टी टीएमसी के साथ समझौते के तहत चुनाव लड़ने के लिए बड़ी सीटों की तलाश कर रही थी। ममता बनर्जी की पार्टी ने शुरू में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को दो सीटों की पेशकश की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीतकर सभी को चोंका दिया। 42



तहत बुधस्पतिवार को गोवा पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वह गोवा से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका दल विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के घटक दलों के साथ तटीय राज्य में एक सीट को लेकर बातचीत कर रहा है। गोवा में लोकसभा की दो सीटें हैं- उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। केजरीवाल ने हालांकि यह नहीं बताया कि उनकी पार्टी दोनों में से किस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। केजरीवाल ने दक्षिण गोवा के बेनोलिम विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "आम आदमी पार्टी 'इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इक्विसिब अलायंस' (इंडिया) गठबंधन के हिस्से के रूप में गोवा सीट पर चर्चा कर रही है। एक बार कुछ तय हो जाने पर हम आपके पास वापस आएंगे। बातचीत जो भी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में 'इंडिया' गठबंधन के उम्मीदवार को वोट जरूर

## रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को महाराष्ट्र, चंडीगढ़ व पुडुचेरी में पूरे दिन का अवकाश

एजेंसी। नई दिल्ली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण मुद्रा बाजार 22 जनवरी को दोपहर ढाई बजे तक बंद रहेंगे। यह नौ बजे के बजाय दोपहर ढाई बजे खुलेंगे। आरबीआई ने परिपत्र में कहा कि केंद्रीय बैंक के दायरे में आने वाले बाजारों के लिए कारोबार का समय सोमवार को अपराह्न ढाई बजे से शाम पांच बजे तक रहेगा। केंद्र सरकार ने बुधस्पतिवार को अपने सभी कर्मचारियों के लिए 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की। वहीं, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) वार एसोसिएशन ने इसके प्रमुख को पत्र लिखकर 22 जनवरी को पूरे दिन की छुट्टी का अनुरोध किया है। वार एसोसिएशन के सचिव ज्ञानेंद्र सिंह ने कैट के प्रमुख को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र सरकार ने देश भर में सोमवार को अपने दफतर आठ दिनों बंद रखने का फैसला किया है और कैट प्रमुख से आग्रह किया कि शेष आधे दिन की छुट्टी भी घोषित कर दी जाए। अयोध्या के राम मंदिर में सोमवार को होने वाली प्राण

प्रतिष्ठा के मद्देनजर महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पुडुचेरी ने 22 जनवरी को पूरे दिन का सरकारी अवकाश घोषित किया है जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और हरियाणा में सोमवार को कार्यालय एवं संस्थान आधे दिन बंद रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि 22 जनवरी को राज्य में सरकारी छुट्टी घोषित करने का फैसला किया गया है। वहीं, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने शुक्रवार को घोषणा की कि 22 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने कहा कि सोमवार को राज्य सरकार के सभी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और उपक्रम बंद रहेंगे। यहां केंद्र प्रशासित जेआईपीएमईआर ने भी अयोध्या के राम मंदिर में अभिषेक के समारोह के मद्देनजर 22 जनवरी को दोपहर ढाई बजे तक आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की और मरीजों को इस अवधि के दौरान बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में आने से

वचने की सलाह दी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश घोषित किया है। केंद्र शासित प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का 22 जनवरी को पूरे भारत में उत्सव मनाया जाएगा। कर्मचारी इस उत्सव में भाग ले सकें इसके लिए यह निर्णय लिया गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन के तहत सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, औद्योगिक प्रतिष्ठान सहित अन्य संस्थान 22 जनवरी को बंद रहेंगे। राजस्थान सरकार ने जयपुर में जारी एक आदेश में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर राज्य में 22 जनवरी को राजस्थान में आधे दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। आदेश के मुताबिक, सोमवार को राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्यालयों, राजकीय उपक्रमों एवं शिक्षण संस्थानों में अपराह्न दो बजे तक सार्वजनिक

अवकाश रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में एक आदेश में कहा कि राज्य में सभी सरकारी कार्यालय और संस्थान 22 जनवरी को आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। हरियाणा सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि 22 जनवरी को उसके सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दोपहर ढाई बजे तक आधे दिन की छुट्टी रहेगी। गुजरात सरकार द्वारा अहमदाबाद में जारी आदेश के अनुसार, सोमवार को राज्य सरकार के सभी कार्यालय और संस्थान दोपहर ढाई बजे तक बंद रहेंगे ताकि राज्य के लोग प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में भाग ले सकें। त्रिपुरा सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर 22 जनवरी को राज्य में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, त्रिपुरा सरकार ने 22 जनवरी को दोपहर ढाई बजे तक अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में छुट्टी घोषित करने का फैसला किया है।

## 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगियों के साथ गोवा की लोकसभा सीट पर बात कर रही आप-केजरीवाल

एजेंसी नई दिल्ली आप नेता ने कहा, "हम समझ सकते हैं कि हम दिल्ली और पंजाब में ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम वहां सत्ता में हैं। लेकिन गोवा में विपक्ष में रहते हुए भी वेंजी ने ये क्लीनिक खोले। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये क्लीनिक दान के आधार पर काम करते हैं।" उन्होंने कहा कि बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार का कर्तव्य है। केजरीवाल ने गोवा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "उन्होंने (सरकार) ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका ऐसा करने का इरादा नहीं है। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो गोवा में किस तरह का विकास होगा।" उन्होंने कहा, "कोई भी सरकार यह बहाना नहीं कर सकती कि उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं। अगर कोई सरकार ऐसा कहती है, तो इसका मतलब है कि वे पैसों में हेरफेर कर रहे हैं।" केजरीवाल और मान राज्य की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के

होने के बावजूद बेनोलिम विधायक वेगास द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में तीन मोहल्ला क्लीनिक शुरू करने पर भी आश्चर्य व्यक्त किया। आप नेता ने कहा, "हम समझ सकते हैं कि हम दिल्ली और पंजाब में ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम वहां सत्ता में हैं। लेकिन गोवा में विपक्ष में रहते हुए भी वेंजी ने ये क्लीनिक खोले। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये क्लीनिक दान के आधार पर काम करते हैं।" उन्होंने कहा कि बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार का कर्तव्य है। केजरीवाल ने गोवा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "उन्होंने (सरकार) ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका ऐसा करने का इरादा नहीं है। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो गोवा में किस तरह का विकास होगा।" उन्होंने कहा, "कोई भी सरकार यह बहाना नहीं कर सकती कि उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं।"

दें।" इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक, आप की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर, विधायक वेंजी वेगास भी मौजूद थे। केजरीवाल ने आगे कहा कि आप "काम की राजनीति" कर रही है। उन्होंने कहा, "अतीत में किसी ने भी काम की राजनीति नहीं की क्योंकि उनका इरादा केवल अपने लिए पैसा कमाना था। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सफलतापूर्वक 550 'मोहल्ला क्लीनिक' संचालित कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, "ये क्लीनिक लोगों के लिए उनकी बुनियादी बीमारियों जैसे सर्दी, बुखार आदि के इलाज के लिए पड़ोस में स्थित स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। ये वातानुकूलित क्लीनिक हैं और वहां आपको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं।" केजरीवाल ने आप के तिष्ठ में

संवाददाता नोएडा धीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह बस सेवा उनका एक सपना था, जिसे वे आज साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे जेवर के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को एक नया आयाम मिलेगा, और बेहन-बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में एक सुनहरा अवसर मिलेगा। रबूपुरा। जेवर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री धीरेंद्र सिंह ने आज रबूपुरा से नोएडा तक की बस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ तीन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों से रबूपुरा और आस-पास के क्षेत्र के छात्रों और ग्रामीणों को उच्च शिक्षा और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। धीरेंद्र सिंह ने बताया कि इन बसों से रबूपुरा से गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, परीचौक, कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय और विकास भवन होते हुए नोएडा तक का सफर किया जाएगा। इससे रबूपुरा स्थित शांति देवी राजकीय महाविद्यालय आने वाले छात्रों को विशेष फायदा होगा, क्योंकि यह विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के मुख्य कैंपस से संबद्ध है। धीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह बस सेवा उनका एक सपना था, जिसे वे आज साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे जेवर के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को एक नया आयाम मिलेगा, और बेहन-बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में एक सुनहरा अवसर मिलेगा, साथ ही वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस बस सेवा से उनके क्षेत्र के छात्रों और ग्रामीणों को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा। उन्होंने बस चालकों और यात्रियों से अपील की कि वे यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जेवर को महत्वपूर्ण परियोजनाओं से समृद्ध किया है,

## लगभग सभी राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर रहे हैं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान


एजेंसी नई दिल्ली उन्होंने कहा, "आईआईटी के छात्र वैश्विक स्तर पर अद्वितीय प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं देश में अच्छा प्रदर्शन करने वाले गैर-आईआईटी छात्रों के सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ।" इससे पहले कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि प्राचीन भारत नवाचारों की भूमि थी, और आज का आधुनिक भारत 'विश्व मित्र' के रूप में कार्य करते हुए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। देश के 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त



करने के लिए प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि परिवर्तन के प्रमुख कारकों के रूप में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि लगभग सभी राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर रहे हैं। प्रधान ने कहा कि ऐसे राज्य जो इच्छुक नहीं प्रतीत हो रहे थे वे भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू कर रहे हैं हालांकि वे भिन्न शब्दावलीयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनईपी 2020 की वर्तमान स्थिति और इस नीति को लागू कराने वाले राज्यों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मुझे खुशी है। भिन्न शब्दावली का इस्तेमाल करके उन्हें संतुष्ट हो लेने दीजिए। लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं यह कह सकता हूँ कि लगभग सभी राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर रहे हैं, जो बेहद दार्शनिक और ऐतिहासिक दस्तावेज है।" प्रधान ने आईआईटी हैदराबाद में एक कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा, "आईआईटी हैदराबाद में 'इनवेन्टिव 2024' का उद्घाटन करके प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ।"

## नोरठा से जुड़ा रबूपुरा स्थित शांति देवी राजकीय विश्वविद्यालय, धीरेंद्र सिंह के अटक परामों से हुआ संभव

संवाददाता नोएडा धीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह बस सेवा उनका एक सपना था, जिसे वे आज साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे जेवर के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को एक नया आयाम मिलेगा, और बेहन-बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में एक सुनहरा अवसर मिलेगा। रबूपुरा। जेवर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री धीरेंद्र सिंह ने आज रबूपुरा से नोएडा तक की बस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ तीन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों से रबूपुरा और आस-पास के क्षेत्र के छात्रों और ग्रामीणों को उच्च शिक्षा और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। धीरेंद्र सिंह ने बताया कि इन बसों से रबूपुरा से गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, परीचौक, कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय और विकास भवन होते हुए नोएडा तक का सफर किया जाएगा। इससे रबूपुरा स्थित शांति देवी राजकीय महाविद्यालय आने वाले छात्रों को विशेष फायदा होगा, क्योंकि यह विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के मुख्य कैंपस से संबद्ध है। धीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह बस सेवा उनका एक सपना था, जिसे वे आज साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे जेवर के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को एक नया आयाम मिलेगा, और बेहन-बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में एक सुनहरा अवसर मिलेगा, साथ ही वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस बस सेवा से उनके क्षेत्र के छात्रों और ग्रामीणों को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा। उन्होंने बस चालकों और यात्रियों से अपील की कि वे यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जेवर को महत्वपूर्ण परियोजनाओं से समृद्ध किया है,



# अलौकिक, अद्वितीय अयोध्या

## समग्र विकास

₹31 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं से संवर रही अयोध्या

₹1,919 करोड़ से जौनपुर-अयोध्या-बाराबंकी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 4 खंडों का दोहरीकरण

₹1,463 करोड़ से महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम

₹241 करोड़ से अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का कायाकल्प

₹845 करोड़ से राम पथ (सहादतगंज से नया घाट तक) का निर्माण

₹246 करोड़ से राजर्षि दशरथ स्वसाशी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या का निर्माण

₹75 करोड़ से बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण

₹68 करोड़ से भक्ति पथ (अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमान गढ़ी होते हुए श्री राम जन्मभूमि तक) का निर्माण

चौरासी, चौदह एवं पंच कोसी परिक्रमा पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण



₹67 करोड़ से महर्षि अरुंधति पार्किंग एवं व्यावसायिक संकुल (पूर्वी एवं पश्चिमी)

₹65 करोड़ से धर्म पथ (एनएच-27 से नया घाट पुराने पुल तक) का निर्माण

₹45 करोड़ से एनएच-27 बाईपास महोबरा बाजार से टेढ़ी बाजार होते हुए श्रीराम जन्मभूमि तक 4 लेन रोड का निर्माण

₹41 करोड़ से श्रीराम जन्मभूमि पथ (सुग्रीव किला से श्रीराम जन्मभूमि तक) का निर्माण

₹37 करोड़ से कलेक्ट्रेट परिसर में लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन पार्किंग का निर्माण

₹34 करोड़ से पुलिस कर्मियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण

₹20 करोड़ से अयोध्या-सुलतानपुर एनएच-330 से एयरपोर्ट तक 4 लेन सड़क का निर्माण

₹17 करोड़ से सोहावल क्षेत्र के पिखरौली ग्रामसभा में सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना

₹17 करोड़ से अमानीगंज में वाहन पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स

# रेहन लेकर कब्जा किया खेत, वापसी पर बलात्कार के केस में फंसाने की दी धमकी

संवाददाता। सुल्तानपुर। हलियापुर थानाक्षेत्र के पाण्डेयपुर के रहने वाले एक युवक ने एक व्यक्ति पर बारह लाख रुपए वापस नहीं करने की शिकायत सीएम व एसपी से की है। पीड़ित युवक का आरोप है कि आरोपी बुद्ध से अपने पैसे मांगे तो वो बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहा। यही नहीं आरोपी पर रेहन लिए गए खेत वापस नहीं करने का भी आरोप है। पीड़ित शिव बरदान पाण्डेय पुत्र स्व. राममनोरथ पाण्डेय ने बताया कि बल्दीराय के मल्लाहन का पुरवा अशरफपुर निवासी अयोध्या प्रसाद ने ग्राम पकेसर व कांफा कोटवा में उसकी जमीन 80 हजार रुपए में साल 2021 में रेहन लिया। शिव बरदान का कहना है कि ये रकम हमारे एकाउंट पर विभिन्न तारीखों में आई। पीड़ित की माने तो कुछ समय बाद अयोध्या ने कहा कि आपकी जमीन कई गांवों में है इसे आप हमें बेच दें। जो पैसे मिले उससे आसपास खेत खरी लें। मैं इस प्रस्ताव पर राजी नहीं हुआ। इसके बाद अयोध्या ने साल 2021 से 2023

तक अलग-अलग एकाउंट से मेरे खाते में 36,66,000 रुपए भेजा और जमीन बैनामा करने के लिए कहा। मैंने इनकार करते हुए अयोध्या द्वारा भेजे गए पैसे उनके एचडीएफसी बैंक पारा बाजार, पीएनबी, कोटक, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक के एकाउंट में वापस लौटाया। जिसका मेरे पास स्टेटमेंट मौजूद है। शिव बरदान ने बताया कि मेरे पास पैसे की कमी थी तो मैंने पैसे पत्नी शिल्पा, भाई देवमणि व शुभम के एकाउंट से ट्रांसफर किए हैं। जब पूरे पैसे मैंने लौटा दिए तब अयोध्या से खेत छोड़ने के लिए कहा तो जवाब मिला खेत आपका है ले लें लेकिन अभी मैं समस्या में दस लाख की मेरी मदद कर दें। मैं अपने गांव में खेत लेना चाहता हूँ। मैंने अपने मित्र व भाई से लेकर 8,72,000 खाते में और 1,28,000 नकद दिया। उन्होंने नवंबर 2023 में पैसे लौटाने को कहा था। लेकिन न उन्होंने पैसे लौटाए और न ही खेत छोड़ा। 24 दिसंबर को हम पैसे मांगने घर पर गए तो अयोध्या और उनके पुत्र धर्मराज, पृथ्वीराज व कर्मराज और घर

की महिलाओं ने गाली-गलौज किया। कहा गया कि महिलाओं के साथ बलात्कार का फर्जी केस लिखा देंगे। हमने इसमें एसपी और सीएम से शिकायत करते हुए कोर्ट की शरण ली है। उधर बल्दीराय के पूरे मल्लाहन अशरफपुर निवासी अयोध्या प्रसाद का कहना है कि शिव बरदान और प्रधान ६ मई तिथि वारी ने हमसे पांच बीघे जमीन पट्टा करने की बात कहकर 12 लाख रुपए कैश और एकाउंट से लिए हैं। पैसे मांगने पर ये लोग जान से मारने की धमकी दे रहे। उसने इस मामले में पहले एसडीएम बल्दीराय और अब डीएम से शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग किया है। वहीं एक ऑडियो सामने आया है जिसमें अयोध्या के झूठ का खुलासा हुआ है। जिन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ६ मई तिथि वारी पर वो पैसे लेने और घोखाघड़ी का आरोप लगा रहे उन्होंने से फोन पर बात कर कह रहे कि आपने कोई पैसे नहीं लिए। जिससे ये तो तय है कि मामले में सभी आरोप सत्य नहीं हैं।

## दबंगों द्वारा किया जा रहा है आवासीय पट्टे की जमीन पर कब्जा, शिकायत

सुल्तानपुर। रामरति पत्नी स्वर्गीय मुन्नीलाल ग्राम तिथरी की रहने वाली ने जनता दर्शन में शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाए कि गांव की ही इशरदा अली पुत्र आदिल अली, मोहम्मद अहमद पुत्र हादी हुसैन, मोहम्मद अख्तर पुत्र नामालूम और उनके परिवार के कुछ दबंग लोग भी आवासीय पट्टा गाटा संख्या 1509 को कब्जा कर लिया है। शिकायत डायल 112 पर की तो पुलिस के लोगों ने निर्माण करने से रोक दिया, लेकिन मौका पाकर फिर से निर्माण चालू हो गया। रामरति ने बताया कि हमारी कोई पुत्र नहीं है, बेटी है जोकि अपने सखुल में रहती है

दबंगों द्वारा किया जा रहा है आवासीय पट्टे की जमीन पर कब्जा, शिकायत

सुल्तानपुर। 11 हजार रुपए की जाँच के लिए दुधमुँहे को लेकर गैर जनपद से एक महिला इंटरव्यू देने पहुंच गई। बेरोजगारी ऐसी कि ग्रेजुएट और पीजी के स्टूडेंट आउटसोर्सिंग के जरिए चपरासी और चौकीदार बनने पहुंचे। लेकिन यहां बदइतजामी ऐसी कि चपरासी बनने के लिए ग्रेजुएट लोगों ने हल्ला मचाया तो जिम्मेदारों ने गेट खोले। नगर के घासीगंज के निकट बेरोजगारों का मजमा लगा रहा। प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी जिलों से आये

# रेलवे स्टेशन हुआ भगवामय, प्रतीक्षालय को रेड मैट से किया गया सुसज्जित

संवाददाता। सुल्तानपुर। रेलवे स्टेशन पहले ही पीएम मोदी के ड्रीम प्रॉजेक्ट 'अमृत भारत योजना' के तहत चमकाया जा रहा था। लेकिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर फिलवक्त रेलवे स्टेशन भगवामय हो गया है। यहां मुख्य द्वार को फूल व पूरे परिसर को भगवा कपड़े से सजाया गया है। आने वाले साधु-संतों के उठरने के लिए वर्तमान पुरुष प्रतीक्षालय को रेड मैट लगाकर सुसज्जित किया गया है। अधिकारी विश्रामगृह की भी साज-सज्जा की गई है। स्टेशन परिसर में स्वागतकर्ता हेतु कुर्सी एवं प्लेटफार्म नंबर एक पर मैट लगाकर सुसज्जित किया गया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी ने उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक सचिंद्र मोहन शर्मा को 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन की साज-सज्जा कराने के लिए पत्र लिखा था। सांसद के पत्र के बाद रेलवे प्रशासन ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आए रहे महान साधु-संतों को लेकर रेलवे स्टेशन को सजाने का काम पूरा कर लिया है। रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार को फूल व पूरे परिसर को भगवा कपड़े से सजाया गया है। आने वाले साधु-संतों के उठरने के लिए वर्तमान पुरुष प्रतीक्षालय को रेड मैट लगाकर सुसज्जित किया गया है। वहीं अधिकारी विश्रामगृह की भी साज-सज्जा की गई है। स्टेशन परिसर में स्वागतकर्ता हेतु कुर्सी एवं एक नंबर प्लेटफार्म पर मैट लगाकर सुसज्जित किया गया है। परेश शिव विभाग प्रचारक श्रीप्रकाश, जिला प्रचारक आशीष, सांसद प्रतिनिधि रणजीत कुमार, भाजपा नेता रूपेश सिंह, मीडिया प्रभारी विजय सिंह रघुवंशी, प्रदीप यादव आदि ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। देश के विभिन्न हिस्सों से रेलवे स्टेशन पहुंच रहे साधु संतों का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद उनको यहां से चार पहिया गाड़ियों से अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा स्थल तक पहुंचाया जाएगा।

सैकड़ों बेरोजगारों ने इंटरव्यू दिया। प्रयागराज के दशरथ, शिव कुमार, अशोक, रेणुका आदि ने बताया कि वह पोस्ट ग्रेजुएट हैं। साथ में बेरोजगार भी। जीवनयापन करने के लिए चपरासी की नौकरी भी करने में कोई गुरेज नहीं है। इंटरव्यू बेहद वीरान और सन्नाटे वाले स्थान पर हुआ। लोग किसी तरह पयागीपुर के रास्ते बैटरी रिश्के से पहुंचे। फिर उन्हें लोको कालोनी के जोखिम भरे रेलवे पटरी को पार करके आना पड़ा। यहां मैदान में सरसरी ठंडी हवा भी चल रही थी। सुबह नौ बजे ही बेरोजगारों की भीड़ काफी संख्या में जुट गई थी। लेकिन उन्हें बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था न लघुशंका करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था। सुबह इंटरव्यू के लिए लिस्ट बरपा होने की सूचना थी लेकिन इंटरव्यू देने वाले लोकल कर्मी ही देरी से आये जिससे लिस्ट तय समय सीमा के बाद दीवार पर लगी। इस बीच दूर से आये अर्थियों ने काफी हो हल्ला भी मचाया। जिससे घबराकर करीब घंटे भर बाद 12 बजे गेट

## आउटसोर्सिंग से चपरासी और चौकीदारी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे पीजी छात्र

सुल्तानपुर। 11 हजार रुपए की जाँच के लिए दुधमुँहे को लेकर गैर जनपद से एक महिला इंटरव्यू देने पहुंच गई। बेरोजगारी ऐसी कि ग्रेजुएट और पीजी के स्टूडेंट आउटसोर्सिंग के जरिए चपरासी और चौकीदार बनने पहुंचे। लेकिन यहां बदइतजामी ऐसी कि चपरासी बनने के लिए ग्रेजुएट लोगों ने हल्ला मचाया तो जिम्मेदारों ने गेट खोले। नगर के घासीगंज के निकट बेरोजगारों का मजमा लगा रहा। प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी जिलों से आये

सैकड़ों बेरोजगारों ने इंटरव्यू दिया। प्रयागराज के दशरथ, शिव कुमार, अशोक, रेणुका आदि ने बताया कि वह पोस्ट ग्रेजुएट हैं। साथ में बेरोजगार भी। जीवनयापन करने के लिए चपरासी की नौकरी भी करने में कोई गुरेज नहीं है। इंटरव्यू बेहद वीरान और सन्नाटे वाले स्थान पर हुआ। लोग किसी तरह पयागीपुर के रास्ते बैटरी रिश्के से पहुंचे। फिर उन्हें लोको कालोनी के जोखिम भरे रेलवे पटरी को पार करके आना पड़ा। यहां मैदान में सरसरी ठंडी हवा

भी चल रही थी। सुबह नौ बजे ही बेरोजगारों की भीड़ काफी संख्या में जुट गई थी। लेकिन उन्हें बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था न लघुशंका करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था। सुबह इंटरव्यू के लिए लिस्ट बरपा होने की सूचना थी लेकिन इंटरव्यू देने वाले लोकल कर्मी ही देरी से आये जिससे लिस्ट तय समय सीमा के बाद दीवार पर लगी। इस बीच दूर से आये अर्थियों ने काफी हो हल्ला भी मचाया। जिससे घबराकर करीब घंटे भर बाद 12 बजे गेट

## राम मंदिर निर्माण के लिए दानदाता में सबसे आगे रहे मोरारी बापू

18.6 करोड़ रुपये का योगदान देकर बने सबसे बड़े दानदाता अयोध्या। आध्यात्मिक कथावाचक मोरारी बापू अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में सबसे बड़े दानसेवा के रूप में उभरे हैं। छह दशकों से भी ज्यादा समय तक रामायण का प्रचार-प्रसार करने के लिए जाने जाने वाले बापू ने बहुत ही शानदार काम कर खुद को एक बार फिर से साबित कर दिया है। उन्होंने कुल 18.6 करोड़ रुपये का दानसेवा किया है। इतनी बड़ी सहायता राशि जो भारत में 11.30 करोड़ रुपये, यूके और यूरोप से 3.21 करोड़ रुपये साथ ही अमेरिका, कनाडा तथा कई अन्य देशों से 4.10 करोड़ रुपये के योगदान से इकट्ठी की गई थी। अगस्त 2020 में, कोविड-19 जैसे मुश्किल के समय में जब गुजरात के पिठोरिया में एक ऑनलाइन कथा श्रीरामभद्राचार्य के 75वें जन्मदिवस पर अयोध्या में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 14 जनवरी से शुरू हुआ है, जो 22 जनवरी तक निरंतर चलेंगे। आयोजन के छठवें दिन मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोर्डिया, आयुक्त गौरव दयाल, पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी नितीश कुमार,



जाएगी। कुल मिला कर दानसेवा 18.6 करोड़ रुपये है। मोरारी बापू इस साल 24 फरवरी से 3 मार्च तक अयोध्या में राम कथा करेंगे। बापू ने यह भी बताया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय अक्टूबर 2023 में बरसाना में चल रही एक राम कथा के दौरान उनसे मिलने आए थे। ने मुझे 22 जनवरी, 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया। उन्होंने मुझे राम लला के अभिषेक के बाद 24 फरवरी से 03 मार्च तक अयोध्या में कथा करने के लिए भी आमंत्रित किया था। अयोध्या के नए मंदिर में वेद, वाल्मिकी रामायण और गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस को रखा जाना चाहिए मोरारी बापू ने अयोध्या के नए राम मंदिर में तीन पवित्र ग्रंथों - वेद, वाल्मिकी रामायण और गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस को नए सिरे से स्थापित करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा 'ऐसा नहीं है कि मुझे पूजा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि

वेद भगवान, वाल्मिकी जी की रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी की राम चरित मानस को अयोध्या में रखा जाना चाहिए। राम कथा सुनाने, राम नाम जपने और राम काम करते हुए 64 सालों की तपस्या के बाद सम्मानित मोरारी बापू ने राम मंदिर के उद्घाटन पर अपना उत्साह दिखाते हुए बताया कि, 'मेरा दिल खुशी से भर गया है क्योंकि राम मंदिर बनने जा रहा है। इन दिनों मेरे गों में उल्लास दौड़ रहा है, मेरा हृदय खुशी से धड़क रहा है।' मोरारी बापू जो अयोध्या विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने स्थायी आह्वान और राम मंदिर के निर्माण में अपने अद्वैत विश्वास के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पहले भी बार-बार कहा है, 'भगवान राम किसी एक संप्रदाय या एक देश के नहीं हैं, वह तो पूरी दुनिया के हैं।' 2018 में अयोध्या में अपनी राम कथा के दौरान मोरारी बापू ने कहा था कि 'स्वीकार और संवाद की नींव पर राम मंदिर बनेगा।' हमें इन दो ईंटों को नींव में रखना होगा।

## अब प्राण प्रतिष्ठा तक अयोध्या में प्रवास कर सकते हैं मुख्यमंत्री

कहा-सभी अधिकारी अपने अपने कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें अयोध्या। भगवान रामलला की प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमों की ६ सप्ताहलीय स्थितियों की समीक्षा करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी, श्रीरामजन्मभूमि का दर्शन पूजन किया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए दृष्टिगत मंदिर परिसर में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। सम्बंधितों से समय से कार्य पूरा करने की अपेक्षा की। ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करने के लिए अगले तीन दिवस प्रवास कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ सोलर बोट का फीता काटकर उद्घाटन किया व सोलर बोट से सरयू नदी का भ्रमण कर जल पुलिस व आपदा प्रबंधन की भी स्थिति का जायजा लिया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 127 नाविकों को लाइफ जैकेट का वितरण भी किया। अगले चरण में राम भूमि स्वच्छ भूमि अभियान के अंतर्गत प्लास्टिक डिपॉजिट रिफंड सेंटर के काउंटर का भी शुभारंभ किया। अयोध्या नगर निगम के साथ निजी क्षेत्र की द कबाड़ी वाला डॉट कॉम कम्पनी के साथ यह कार्यक्रम

चलाया जा रहा है। अगले चरण में मुख्यमंत्री ने नगर निगम द्वारा निर्माणधीन टेंट सिटी का तथा ग्रीनफील्ड टाउनशिप का भी निरीक्षण किया तथा सरयू नदी के पुराने पुल के पास स्थित कच्चा घाट से सौर ऊर्जा से संचालित बोर्ड का शुभारम्भ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री सूर्यप्रताप शाही, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, सांसद लल्लू सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह, मेयर महंत गिरीश पति त्रिपाठी, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, डा अमित सिंह चौहान, रामचन्द्र यादव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोर्डिया, आयुक्त गौरव दयाल, पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी नितीश कुमार,

एसएसपी राजकरन नैयर, नगर आयुक्त विशाल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अनिता यादव सहित सम्बंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री मृत्युंजय कुमार, अपर निदेशक श्री अंशुमान राम त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी सम्बंधित विभागों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य से मिले सीएम योगी, लिया आशीर्वाद

## थाना परिसर में उपजिलाधिकारी की अद्ययता में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न

झांसी! टहरोली आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य शुभारंभ के दौरान करवें में प्राचीन मंदिरों पर होने वाले अनुष्ठानों एवं पूजन को लेकर एवं सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए कई अहम जानकारियां दी वहीं 25 जनवरी को सिद्धनाथ आश्रम पर होने वाले सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी दिनेश कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए जिसमें थाना प्रभारी ने क्षेत्र से आए हुए ग्राम प्रधान एवं संत्रांत लोगों से प्राण प्रतिष्ठा के दिन होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था को ध्यान में रख कर आयोजन किया जाए जिसमें किसी भी प्रकार अव्यवस्था न फैले एवं

सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का भ्रामक प्रचार प्रसार न हो जिसकी निगरानी रखी जा रही है एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सभी से सहयोग मांग कर कहा की यहां पर होने वाला हर कार्यक्रम आपका है जिसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमें और आपको उठानी होगी

इस मौके पर ग्राम प्रधान टहरोली किला अमित जैन खास प्रधान नेपाल सिंह यादव पुषेन्द्र सागर प्रधान परसा बेरबई प्रधान विजयरम आर्य कमलेश प्रधान सिलोरी आदि मौजूद रहे

## राम भक्तों की सुविधा के लिए संचालित होंगी 250 बसे

—पूर्व विधायक गोरखनाबा बाबा को बनाए गये पांचों रेलवे स्टेशन पर परिवहन व पार्किंग व्यवस्था के प्रमुख अयोध्या। 22 जनवरी के उपरांत ट्रेनों से अयोध्या आने वाले रामभक्तों को परिवहन की सुविधाओं को लेकर पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम व कैंट, कटरा, सलारपुर, दर्शन नगर रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं को देखा। पूर्व विधायक को पांचों रेलवे स्टेशन पर परिवहन व पार्किंग व्यवस्था के प्रमुख बनाए गए हैं। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि अयोध्या धाम व कैंट, कटरा, सलारपुर व दर्शन नगर पर ट्रेनों से आने वाले श्रद्धालुओं को स्टेशन पर स्वागत व अल्पाहार के बाद दर्शन के उन्हें साधन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 250 बसों की व्यवस्था की गई है। स्टेशनों पर आने वाले भक्तों की संख्या के आधार पर बसों को लगाया जाएगा जाएगा। जिसके लिए शुक्रवार को बसों की पार्किंग हेतु स्थल चयन का निरीक्षण किया गया है। स्टेशन से भक्तों को समयानुसार आवास व्यवस्था स्थल व दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी स्टेशनों पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है। जिससे सामान्य यातायात में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान ऋषभ गुप्ता, रवीन्द्र पाण्डेय, राजन बाबा, राघवेंद्र सिंह, विकास श्रीवास्तव, अजीत मोर्य समेत अन्य

राम भक्तों की सुविधा के लिए संचालित होंगी 250 बसे

परिक्षाये आयोजित होना है। साथ ही आगामी लोक सभा निर्वाचन-2024 के निर्वाचन से सम्बंधित कार्य सम्पादित किये जा रहे है। इस दौरान कतिपय असांजिक, स्वार्थी व अराजक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा सकता है तथा संकीर्णता लाभ के उददेश्य से ऐसी गतिविधियों की जा सकती है, जिससे कि साम्प्रदायिक एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा उपरोक्त कार्यों में बाधा उत्पन्न की जा सकती है

## कक्षा-8 तक के समस्त सरकारी / गैर सरकारी / प्राइवेट विद्यालयों में 20 जनवरी, 2024 का अवकाश घोषित

झांसी! जनपद में शीतलहरी सम्बन्धित मौसम विभाग के पूर्वानुमान और तापमान को देखते हुए जनपद के सभी बोर्ड के विद्यालयों हेतु जिलाधिकारी झांसी द्वारा निर्देशित किया गया है कि कक्षा-8 तक के समस्त सरकारी ६ गैर सरकारी ६ प्राइवेट विद्यालयों में जहां सम्भव हो, वहां कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से कराया जा सकता है। जिन विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन सम्भव न हो, वहां दिनांक-20.01.2024 को छात्र/छात्राओं के लिये अवकाश घोषित किया जाता है

## मथुरा को मिला पहला पर्यटन थाना, बढ़ेगी सुविधाएं

(मथुरा)(ए.के.शर्मा) कान्हा की नगरी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता मथुरा जनपद के चहुंमुखी विकास पर केंद्रित है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नई पर्यटन नीति को तैयार किया गया है। इसे देखते हुए पर्यटकों को मिलने वाली सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। मथुरा जनपद को शुक्रवार को विधिवत रूप से अपना पहला पर्यटन थाना मिल गया। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में बने अस्थायी तौर पर कालीदह पार्किंग के भवन में बन रहे पर्यटन थाने का उद्घाटन शुक्रवार को एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने फीता काटकर किया। यह पहला



पर्यटन थाना होगा जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत मिल सकेगी। इसके साथ ही जिलेभर में तैनात पर्यटन पुलिस की कंट्रोलिंग इन्टी थाने से की जाएगी। आपको बताते चलें कि मथुरा वृंदावन एवं आसपास के धार्मिक स्थलों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों की समस्याओं का समाधान इसी थाने के अंतर्गत किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटन थाने में विदेशी भाषाओं के जानकारी पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं जो विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं कृष्ण भक्तों के साथ वार्तालाप कर उनकी समस्या हल कर सकेंगे। वहीं पर्यटकों के साथ होने वाले अपराधों से संबंधित मुकदमे भी पर्यटक थाने में दर्ज किए जाएंगे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया कि मथुरा वृंदावन के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है जो वृंदावन में पर्यटन पुलिस थाने का उद्घाटन हुआ है। शासन की मंशा के अनुरूप काफी कठिन परिश्रम के बाद यह कार्य साकार होते हुए देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने आईजी एवं एसएसपी मथुरा को बधाई दी। इस अवसर पर नगर आयुक्त, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण के समस्त पुलिस बल मौजूद रहा। पर्यटन थाने में एक इस्पेक्टर के साथ साथ आठ सब इस्पेक्टर एवं एक महिला सब इस्पेक्टर एवं मुख्य आरक्षी के साथ साथ अन्य पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। एडीजी ने बताया कि पर्यटन थाने में एफआईआर भी दर्ज की जा सकेगी। इसके साथ ही देश विदेश के कोने कोने से मथुरा वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सकेगी तथा किसी प्रकार की पर्यटकों द्वारा की गई शिकायत पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

## प्रतिमा तले रानी झांसी को दी सदर बाजार में उन्नीस की सलामी

झांसी! मानव विकास संस्थान के तत्वावधान में मुन्ना भैया साहू की अध्यक्षता , छावनी संघ चालक मान. सुरेन्द्र खण्डेलवाल जी के मुख्य आतिथ्य , आर्य कन्या महाविद्यालय कि डॉ शारदा सिंह के विशिष्ट आतिथ्य व राष्ट्रीय कन्वीनर अशोक अग्रवाल काका के सानिध्य में एमव राजेश कुमार अग्रवाल के संयोजन में आज रानी झांसी की प्रतिमा तले उन्हें नमन करते हुए सलामी दी गयी अमरनाथ में अतिथियों का स्वागत बैज अलंकरण कर किया गया। पूर्व अध्यक्ष सुनील सक्सेना ने मुख्य अतिथि का स्वागत व अभिनंदन किया



, मातृशक्ति का भी स्वागत व अभिनंदन किया गया। रानी झांसी के कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ शारदा सिंह जी ने बच्चों को उनके जीवन से प्रेरित होने का आवाहन किया मुख्य आतिथ्य ने बताया आजादी के अमृत महोत्सव के साथ माननीय डी आई जी जोगेंद्र कुमार द्वारा आरंभ हुए सलामी कार्यक्रम को निरन्तर मानव विकास संस्थान रानी की जन्म की तिथि को माह की प्रत्येक उन्नीस सलामी देते हुए उन्हें नमन करता आया है राष्ट्रीय कन्वीनर काका जी ने कहा रानी झांसी द्वारा किए गए अविस्मरणीय संस्मरण के दृष्टिगत आगामी पीढी में साहस भरने व संस्कृति के बीज को अंकुरित करने हेतु उनको नमन करना अति आवश्यक एवम महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा परिवार के लिए तो सभी कर्तव्य निभाते ही हैं किंतु समाज को एकजुट कर समाज के लिए कार्य करने वालों की स्मृतियां युगों तक रहती हैं। मानव विकास संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा निरन्तर इस प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष सुनील सक्सेना ने व सभी के प्रति आभार बेटी बचाओ के मुन्ना भैया साहू ने व्यक्त किया।

## जनपद में 29 फरवरी 2024 तक धारा 144 लागू रहेगी - जिला मजिस्ट्रेट

झांसी! विगत वर्षों की भांति जनपद में गुरु गोविन्द सिंह जयंती, नेताजी सुभाष चन्द्र, मो0 हजरत अली का जन्म दिवस, गणतन्त्र दिवस, महात्मा गांधी पुण्यतिथिश्वाहीद स्मृति दिवस, दिनांक 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री रामजी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रस्तावित है तथा विभिन्न सामायिक एवं प्रतियोगितात्मक परीक्षाये आयोजित होना है। साथ ही आगामी लोक सभा निर्वाचन-2024 के निर्वाचन से सम्बंधित कार्य सम्पादित किये जा रहे है। इस दौरान कतिपय असांजिक, स्वार्थी व अराजक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा सकता है तथा संकीर्णता लाभ के उददेश्य से ऐसी गतिविधियों की जा सकती है, जिससे कि साम्प्रदायिक एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा उपरोक्त कार्यों में बाधा उत्पन्न की जा सकती है



# संपादकीय

## म्यांमार सीमा पर चुनौती

इस बीच म्यांमार के अंदर की घटनाएं और भी ज्यादा चिंता का कारण बन रही हैं। म्यांमार के कई हिस्सों में विद्रोह से जुड़ रहे सैन्य शासन के लिए नई चुनौतियां पेश आ रही हैं। इससे भारत की सीमाई चुनौती ज्यादा गंभीर हुई है।

यह खबर भारत के लिए चिंताजनक है कि म्यांमार के पश्चिमी रखाइन प्रांत में सक्रिय एक नस्लीय हथियारबंद गुट ने भारत-बांग्लादेश सीमा के पास एक शहर पर कब्जा कर लिया है। सशस्त्र समूह अराकान आर्मी ने यह दावा किया है। इस गुट ने जिस शहर को कब्जा करने का दावा किया है उसका नाम पालतेवा है। म्यांमार से लगी सीमा पहले से भारत के लिए सिरदर्द बनी हुई है। मणिपुर में जारी हिंसा के क्रम में इसकी चर्चा हुई है। बल्कि यह खबर भी आई थी कि भारत सरकार ने म्यांमार से लगी सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। लेकिन उसका मिजोरम सरकार ने जोरदार विरोध किया है। सीमाई इलाकों में आर-पार समान जनजातीय समुदाय रहते हैं, जिनके बीच आपसी रिश्ते हैं। ये लोग सीमा को पार कर एक से दूसरी तरफ आते-जाते रहते हैं। इसलिए 1970 के दशक से भारत ने वहां इस मामले में उदार नीति अपना रखी है। लेकिन अब उस पर पुनर्विचार हो रहा है। इस बीच म्यांमार के अंदर की घटनाएं और भी ज्यादा चिंता का कारण बन रही हैं। म्यांमार के कई हिस्सों में विद्रोह से जुड़ रहे सैन्य शासन के लिए नई चुनौतियां पेश आ रही हैं। हाल में म्यांमार में सैनिक शासन विरोधी गुटों ने कई सैन्य चौकियां और कस्बों पर नियंत्रण कर लिया है। ताजा घटना भी उसी सिलसिले से जुड़ी हुई है। अराकान आर्मी के एक प्रवक्ता ने कहा कि उसने पालतेवा शहर पर कब्जा कर लिया है। कलादान नदी के तट पर स्थित यह शहर पड़ोसी देशों के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। अराकान सेना का दावा है कि उसके पास लगभग 30,000 हथियारबंद लोग हैं और यह सरकार विरोधी त्रिपक्षीय ब्रदरहुड अलायंस का हिस्सा है। इस घटना से सीमाई इलाकों में एक नई परिस्थिति बनेगी। विद्रोही गुटों ने कुछ समय पहले चीन की सीमा से लगे एक प्रांत पर कब्जा कर लिया था। तब चीन ने मध्यस्थता की। नतीजतन, विद्रोही गुट और सैन्य शासन के बीच एक करार हुआ। इस तरह चीन ने अपने सुरक्षा हितों की रक्षा की। क्या भारत को भी ऐसी पहल नहीं करनी चाहिए?

## किससे हैं ये परदादारी ?

चीन ने भारत के खिलाफ लगातार हमलावर रुख अपनाए रखा है, तो यह बात देश की जनता को मालूम होनी चाहिए, ताकि देश की सुरक्षा पर मंडरा रहे इस खतरे का मुकाबला करने के मुद्दे पर देश में आम सहमति तैयार हो सके।

हेरतअंगेज है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीनी सैनिकों के साथ भारतीय जवानों की हुई दो मुठभेड़ों की खबर को भारतीय जनता से छिपाया गया। उन मुठभेड़ों में शामिल भारतीय जवानों को भारतीय सेना के बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन उन सैनिकों की वीरता की कहानी से संबंधित वीडियो को यूट्यूब पर डालने के बाद वहां से हटा लिया गया। खबर यह है कि जून 2020 में गलवान मुठभेड़ के बाद भी एलएसी पर चीन की सेना ने हमले किए। भारतीय सेना के बहादुरी पुरस्कारों के कुछ वीडियो से सामने आई हैं। खुद भारतीय सेना ने ये वीडियो यूट्यूब पर डाले। लेकिन बाद में ये वीडियो यूट्यूब से हटा लिए गए। क्यों? और ऐसा किसके आदेश पर किया गया? इतनी बड़ी घटनाओं को देश की जनता- यहां तक कि विपक्षी दलों से छिपाने के पीछे मकसद क्या है? चीन ने भारत के खिलाफ लगातार हमलावर रुख अपनाए रखा है, तो यह बात देश की जनता को मालूम होनी चाहिए, ताकि देश की सुरक्षा पर मंडरा रहे इस खतरे का मुकाबला करने के मुद्दे पर देश में आम सहमति तैयार हो सके। लेकिन ऐसा लगता है कि कोशिश चीन की कार्रगारियों पर परदा डालने की हुई है। इससे संदेह पैदा हुआ है कि मौजूदा समय में देश की सुरक्षा से ज्यादा अहम केंद्र सरकार की मजबूत छवि की रक्षा करना हो गया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जिन दो घटनाओं को छिपाया गया, उनमें एक सात जनवरी 2022 को हुई थी। तब एलएसी पर भारतीय सेना की एक चौकी पर पीएलए के कुछ सिपाहियों ने हमला कर दिया। चौकी पर तैनात सिख लाइट इन्फैंट्री की आठवीं बटालियन के सिपाही रमन सिंह ने चीनी सिपाहियों को रोका, जिसके बाद उनके बीच हाथापाई हुई। उसके बाद 27 नवंबर 2022 को पीएलए के 50 सैनिकों ने एलएसी पार करने की और भारतीय सेना की एक चौकी पर कब्जा करने की कोशिश की। जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 19वीं बटालियन ने इन चीनी सैनिकों का मुकाबला किया। इस अभियान में सिंह घायल भी हो गए। इस बहादुरी के लिए उन्हें सेना मेडल दिया गया है।

## मुफ्त की खेड़ी और बढ़ता कर्ज का बोझ

स्वयं प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों द्वारा जनकल्याण की बात कह कर लोगों को टैक्स व अन्य सेवाओं के लिए लिया जाने वाला प्रभार माफ करके जरूर वाहवाही लूटी होगी। परन्तु इससे उन राज्यों पर कर्ज का जो बोझ बढ़ गया है, वह चिन्तनीय है। स्वयं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया चेता चुका है कि राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग को निर्देश दे चुका है कि इन राजनैतिक दलों से पूछें कि मुफ्त की घोषणा के लिए वित्तीय विधान कैसे किया जायेगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविन्द केजरीवाल ने सबसे पहले इस मुफ्त की खेड़ी की बात शुरू की थी कि दिल्ली के किसी निवासी को बिजली का बिल नहीं देना है। फिर फ्री पानी, फ्री राशन, फ्री चिकित्सा सेवा आदि की घोषणा की गई। बाद में मुख्यतः कांग्रेस ने कम दाम पर गैस सिलेण्डर आदि की घोषणा की। मोदी जी की स्वयं की आलोचना के बाद अब भाजपा शासित राज्यों भी फ्री की खेड़ी बांटने में पीछे नहीं हैं। अब तो शायद ही कोई राजनैतिक दल होगा जिसने फ्री की बात नहीं की है। मध्य प्रदेश में चुनाव से कुछ पहले महिलाओं को हर माह 12000- की सहायता ने मध्य प्रदेश में भाजपा को प्रचण्ड बहुमत दिलाया। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने पिछले साल जितना कर्ज लिया था उतना अब तीन राज्य तीन महीने में ही ले लेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस ज्यादा कर्ज नहीं ले पायेगी, क्योंकि के.सी.आर. की सरकार 87लन कर्ज पहले से ही ले चुकी है। पूरे साल जितना कर्ज रिजर्व बैंक से ले सकते हैं उसका 80लन राजस्थान सरकार को एक माह में ही ले लेना पड़ेगा ताकि गैस सिलेण्डर में रियायत, बिजली बिल में माफ़ी आदि के वादे पूरे कर सकें। सन 2023 के चुनाव में मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ दल ने जो वादे किये हैं वे इस प्रकार हैं- मध्य प्रदेशरू 1.31 करोड़ महिलाओं को लाडली बहना और गैस सिलेण्डर पर 1708 रु.धमाह देना है। 44.13 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 388 रु.धमाह सब्सिडी देना है। इन दोनों योजनाओं के लिए सालाना खर्च 21,696 करोड़ रुपये है। राजस्थानरू 450 रु. में सिलेण्डर देने के लिए हर साल 3,720 करोड़ चाहिये। रियायती बिजली योजना चालू है। खर्च हर माह 595. करोड़। पुरानी सरकार की स्मार्टफोन योजना के लिए 3700 करोड़ चाहिए। कुल सालाना खर्च 14,560 करोड़।की महतारी योजना में 60 लाख महिलाओं को 1 हजार रुधमाह दिये जा रहे हैं।

# रामराज्य के सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत मोदी-योगी

वैसे जब से दुनिया हम सभी के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में भव्य दिव्य आलौकिक मंदिर बनाता हुआ देख रही है, तब से ही देश का आम जनमानस दिन-प्रतिदिन राममय होते नजर आ रहा है।मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के स्वागत के लिए पावन अयोध्या धाम में दिव्य व भव्य दीपावली मनाने की जबरदस्त तैयारी चल रही है, पूरा देश मोदी-योगी के प्रयासों से राममय होता जा रहा है, मोदी-योगी की जोड़ी अयोध्या में विश्वस्तरीय विकास की नित-नई इबारत लिख रहे हैं, जिससे पिछले कुछ वर्षों से अयोध्या धाम देश व दुनिया में चर्चाओं में छाया हुआ है। हालांकि अब से उत्तर प्रदेश की धार्मिक व ऐतिहासिक पावन नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के अद्भुत दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से ही देश व दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर रामराज्य के बारे में विस्तार से चर्चा होने लगी है। देश व दुनिया के लोग आज भी रामराज्य के साथ प्रभु श्री राम के अद्भुत दिव्य मंदिर को जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं, वह प्रभु श्री राम के राज्य की अच्छाईयां को देख देश में रामराज्य की पूरी कल्पना को ए पाताल पर बहुत ही तेजी से साकार होते देखना चाहते हैं। वैसे भी देखा जाए तो हम सभी सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए रामराज्य की अवधारणा केवल शासक के कर्तव्यों का एक उत्कृष्ट मानदंड वाला विचार मात्र नहीं है, बल्कि यह देश व

विराजमान होता देखने का कार्य करेगी, उसके चलते ही भारत की जनता इस वक्त 22 जनवरी 2024 की उस राममय पावन घड़ी का इंतजार कर रही है, जब सारी दुनिया के पालनहार प्रभु श्री राम जन्मस्थली पर बने भव्य मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के बाद दिव्य आलौकिक स्वरूप में विराजमान होंगे। हालांकि इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के चलते ही वर्ष 2024 हमेशा के लिए दुनिया के इतिहास के पन्नों में स्वर्णधरों में दर्ज हो जायेगा। वैसे देखा जाए तो सनातन धर्म व संस्कृति को मानने वाले देश व दुनिया के करोड़ों राम भक्तों का जो सपना देश की आजादी के साथ ही पूरा हो जाना चाहिए था, आज वह सपना बहुत सारी बाधाएं हटाने के बाद देश की आजादी के 76 वर्षों के बाद प्र. गानमंत्री नरेन्द्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामराज्य की अवधारणा की मजबूत नींव रखने की शुरुआत 22 जनवरी 2024 को अयोध्या से कर रहे हैं, जिसके लिए देश में बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है और पूरा देश राममय हो चला है। वैसे जब से दुनिया हम सभी के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में भव्य दिव्य आलौकिक मंदिर बनाता हुआ आख देख रही है, तब से ही देश का आम जनमानस दिन-प्रतिदिन राममय होते नजर आ रहा है। हालांकि अब चंद दिनों के इंतजार के बाद आम जनमानस 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि की पावन धरा पर प्रभु श्री राम को पूरी दिव्यता के साथ



की पूर्ण ईमानदारी से की गई मेहनत व श्रेष्ठ आचरण के बिना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी देश में आम जनमानस के एक बड़े वर्ग को यह संतोष है कि कम से कम देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चलते व उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चलते अब तेजी के साथ जनहित के विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन स्तर कुछ बेहतर अवश्य हो रहा है और सबसे अहम बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में तो राक्षसी प्रवृत्ति के दुष्ट लोगों का चुन चुन कर दमन हो रहा है, जो कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में रामराज्य की अवधारणा को धरातल पर अमलीजामा पहनाने की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। आज देश के बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोदी-योगी की जोड़ी के कार्यों से देश

# विदेशी पर्यटकों को लुभा रही कोण्डागांव की सुंदरता

## -मावा कौंडानार पर्यटन सर्किट का आनंद लेने पहुंच रहे देश विदेश के पर्यटक

गोपाल कोण्डागांव अपने आप में ढेरों प्राकृतिक संसाधनों के साथ अमूल्य सांस्कृतिक एवं पारम्परिक कलाओं को समेटे हुए है। यहां की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्यता अपने आप में विलक्षण है। इन सभी संसाधनों से पूर्व में पूरा विश्व अनभिज्ञ था। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा जिले में मावा कौंडानार पर्यटन सर्किट का विकास किया गया है। इस सर्किट के बन जाने से जिले में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। जहां एक वर्ष में टाटामारी में 01 लाख से अधिक लोगों ने टाटामारी के विहंगम दृश्यों के आनंद लिया है। वहीं विदेशों से आये 50 से अधिक पर्यटकों ने यहां की सुंदरता का आनंद लिया है। फ्रांस से आयी पर्यटक क्लेयर ने बताया कि उन्होंने दो बार टाटामारी और कोण्डागांव का भ्रमण किया है। पहली बार जब अपने दोस्तों के साथ आयी तो उन्हें यहां की प्राकृतिक खूबसूरती इतनी अच्छी लगी की जब अपनी मां को भी इसके संबंध में बताया तो वे भी मेरे साथ कोण्डागांव का भ्रमण करने आयी थी। फ्रांस के ही अल्बाने एवं गेल ने बताया कि वे इससे पहले कई स्थानों पर गये हैं परंतु कोण्डागांव में आदिम परम्परा और यहां के लोगों की सादगी उन्हें बहुत पसंद आयी। आदिवासी लोगों से मिलकर एवं उनकी दिनचर्या को पास से देखने का मौका मिला जिससे उन्हें बहुत खुशी मिली। फिनलैंड के थॉमस, निकोडेम, टोपीयाज ने कहा कि कोण्डागांव में स्थानीय युवाओं द्वारा हमें ट्रेकिंग करते हुए जलप्रपातों, वनस्पतियों को देखना पर्यटकों के बीच प्राकृतिक माहौल में मांझिनगढ़ के ऊपर कैम्पिंग करने का अनुभव अपने आप में अनुत्ता था। उन्हें यहां आकर बहुत खुशी महसूस हुई। युवाओं के बीच सीविल सेवाओं की तैयारी हेतु प्रसिद्ध असिस्टेंट प्रोफेसर एवं कांसलर डॉ० विजेन्द्र सिंह चौहान हाल ही में बस्तर के प्रवास पर थे

उन्होंने ने अपने प्रवास की शुरुवात कोण्डागांव जिले के टाटामारी पर्यटन स्थल से की जैसे ही वे टाटामारी पहुंचे टाटामारी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मंत्र मुग्ध हो गये और वे अपने आप को वहां की सौंदर्यता का वीडियो बनाने से नहीं रोक पाये थे। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा जिले में मावा कौंडानार पर्यटन सर्किट का विकास किया गया है। इस सर्किट के बन जाने से जिले में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। जहां एक वर्ष में टाटामारी में 01 लाख से अधिक लोगों ने टाटामारी के विहंगम दृश्यों के आनंद लिया है। वहीं विदेशों से आये 50 से अधिक पर्यटकों ने यहां की सुंदरता का आनंद लिया है। क्षेत्रों में कार्य करने हेतु अवसर प्रदान किया जा रहा है। स्थानीय महिला समूहों को पर्यटन क्षेत्रों के निकट जलपान व्यवस्था द्वारा रोजगार उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस सर्किट में घुमाने हेतु स्थानीय युवाओं के पर्यटन समूहों द्वारा दो दिन तक का पैकेज तैयार किया गया है। जिसमें टाटामारी में विश्राम, नाइट कैम्पिंग, स्टार गैजिंग, स्टोरी टेलिंग, बोन फायर, हर्बल टी, पारम्परिक आदिवासी भोजन, सुर्योदय का विहंगम दृश्य, मांझिनगढ में आदिम काल के शैल चित्र सुर्यस्त का विहंगम दृश्य के अतिरिक्त कुम्भारी, लिंगोदरहा, ऊपरखेटी एवं हानहेड जैसे सुंदर जलप्रपातों का भ्रमण कराया जाता है। इस सर्किट के माध्यम से यहां के स्थानीय 40 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं 200 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। इस सर्किट में पर्यटन हेतु ऑनलाइन बुकिंग केशलाल ईको टुरिजम की वेबसाइट

## लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस आगे

लोकसभा चुनाव की तैयारी हर तरफ चल रही है। कांग्रेस में भी और भाजपा में भी। हालांकि हाल में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी कांग्रेस ही आगे थी। गहलोत ने बाकायदा घोषणा की थी कि हम चुनाव के तीन महीने पहले कम से कम सौ प्रत्याशी घोषित कर देंगे, लेकिन कर नहीं पाए थे। गहलोत और पायलट खुधे में इतनी रस्साकशी चली थी कि प्रत्याशियों की घोषणा में भी कांग्रेस पिछड़ गई थी। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए भी कांग्रेस पहले से ही आगे होने की बात कर रही है। प्रत्याशियों की सूचियां हर स्तर पर तैयार की जा रही हैं, लेकिन इससे होगा क्या? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी भाजपा पूरी तरह भक्ति भाव से ओत प्रोत हैं। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी चल रही है और गाँव, शहर, कस्बों में जगह-जगह मंदिरों की सफाई की जा रही है। बड़े-बड़े भाजपा नेता हाथ में झाड़ू लिए मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो घोषणा कर रखी है कि हमें निमंत्रण मिला है, लेकिन हम अयोध्या जाने से विनम्रता पूर्वक इनकार कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक प्रेक्षक कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए ज्यादा संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। मध्यप्रदेश में लोकसभा की सिर्फ एक सीट कांग्रेस के हाथ में है। उसके लिए सबसे बड़ी मशकक़द यही है कि ये एक सीट कैसे बचाई जाए या एक से दो सीट पर किस तरह जाया जाए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के लिए कोई छप्पर फटने वाला नहीं है। गुजरात तो कांग्रेस को भूल ही जाना चाहिए। दरअसल, राजनीति की पुरोधा मानी जाने वाली कांग्रेस अब शायद हवा के साथ चलना भूल गई है। उसकी निर्णय क्षमता, उसकी सोच को जाने क्या हो गया है कि वह ज़्यादातर मामलों में हवा के विपरीत ही निर्णय करती चली जा रही है। खम टोककर उसके सामने खड़ी भाजपा के निर्णयों, कदमों से भी कांग्रेस कुछ सीखना नहीं चाहती। हालांकि, राहुल गांधी अब एक और यात्रा पर निकल चुके हैं। न्याय यात्रा पर। हो सकता है इस यात्रा से ही कुछ निकले। जनाधार, मतदाता, वोटर्! कुल मिलाकर, अयोध्या और मंदिर की हवा में अब सब कुछ बहने वाला है। लोकसभा चुनाव की संभावनाओं में भाजपा के सिवाय दूसरे दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मार्च महीने में घोषित होने वाले चुनाव हो सकता है, कुछ और जल्दी कर दिए जाएं। जहां तक विपक्षी गठबंधन का सवाल है, सीटों के बँटवारे को लेकर यहाँ महाभारत हो रहा है। भीतर ही भीतर कोई किसी से सहमत नहीं है। ऊपरी तौर पर एकता दिखाई जा रही है। भाजपा के सामने समूचे विपक्ष का अकेला प्रत्याशी खड़ा करना अब भी टेढ़ी खाती ही है। विपक्ष अगर एक प्रत्याशी को लड़ाने पर सहमत हो जाता है तो परिणाम कुछ और ही होंगे। हो सकता है राजनीति की दशा और दिशा में भी कुछ बदलाव आ जाए।



# इजराइल ने गाजा यूनिवर्सिटी पर की बमबारी, अमेरिका ने मांगी सफाई



वीडियो में दिखाया गया है कि विस्फोटों से पहले एक परित्यक्त विश्वविद्यालय की इमारत दिखाई देती है, जो संभवतः भीतर छिपे बमों के कारण होती है, विस्फोट करती है और सभी दिशाओं में सदमे की लहर भेजती है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो बिडेन प्रशासन ने इजराइल से वायरल सोशल मीडिया वीडियो पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें कथित तौर पर इजराइल रक्षा बलों को गाजा के मुख्य परिसर की इमारत को उड़ते हुए दिखाया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि उनके पास इस मामले पर आगे टिप्पणी करने के लिए

बढ़कर 24.620 हो गई है और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पिछले 24 घंटों में 170 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल ने दावा किया कि उसने 9,000 हमास लड़ाकों को मार डाला।

इसे भी पढ़ें इजरायल के बाद अब दोस्त रूस ने कर दिया बड़ा ऐलान, इस ज्वाइंट वेंचर से मालदीव और चीन दोनों हो जाएंगे परेशान अमेरिका ने फिर से चेतावनी दी कि गाजा में बहुत अधिक नागरिक हताहत हुए हैं और दो-राज्य समाधान के लिए काम करते रहने की कसम खाई है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने एयर फोर्स वन में संवाददाताओं से कहा कि संघर्ष के बाद गाजा पर कब्जा नहीं होगा।

# इरान और पाकिस्तान क्यों हुए एक दूसरे के खून के प्यासे ?



देखा जाये तो ईरानी हमले पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अभूतपूर्व थी क्योंकि पाकिस्तान में ईरान की ओर से किया गया यह पहला हवाई हमला था। जैश अल-अदल के बीच अविश्वास का पुराना इतिहास है जिसने 2012 में जैश अल-अदल के उद्भव के साथ एक खतरनाक मोड़ ले लिया था। ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल और ड्रोन हमला कर आतंकवादियों के ठिकानों का ध्वस्त करने का दावा किया तो पलटवार में पाकिस्तान ने भी ईरान पर अतंकवादी हमला कर आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया। इस वार और पलटवार से दुनिया हैरान है क्योंकि जहां देखो वहीं जंग छिड़ती चली जा रही है। रूस-यूक्रेन दो साल से लड़ रहे हैं, इजराइल और हमास गत अक्टूबर महीने से आपस में भिड़े हुए हैं। उधर लाल सागर में आतंक फैला रहे हूतियों के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने कार्रवाई करते हुए यमन में हमला बोल रखा है। ऐसे में अब पाकिस्तान और ईरान जिस तरह आपस में भिड़ रहे हैं उससे प्रश्न खड़ा होता है कि क्या दुनिया को एक और युद्ध देखने को मिलेगा? वैसे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान पहली बार भिड़े हैं। दरअसल इन दोनों ही देशों के बीच संघर्ष का पुराना इतिहास रहा है। आज जिस आतंकी संगठन जैश अल-अदल पर आरोप लगाते हुए ईरान ने हमला किया है वह कूसे खड़ा हुआ और उसका अतीत क्या है यह समझने के लिए इतिहास की कुछ घटनाओं को जानना जरूरी है। हम आपको बता दें कि सऊदी कोह एक सीमावर्ती शहर है जोकि जैश अल-अदल के पूर्व सेकेंड-इन-कमांड मुल्ला हाशिम का गृहनगर है। मुल्ला हाशिम चरमपंथी समूह जुनदुल्लाह के रूप में परिभाषित करके, ईरान के खिलाफ बलूच प्रतिरोध के धार्मिक आयात को महत्वपूर्ण आकार दिया था। सिपाह-ए-रसूल अल्लाह की स्थापना के अलावा, उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में कुलाहू परिसर में सुन्नी जिहादियों के लिए एक शिविर स्थापित किया। 2006 में मौलूक की मृत्यु के बाद उसके भाई मुल्ला उमर ईरानी को सिपाह-ए-रसूल अल्लाह और परिसर का नेतृत्व संभालना पड़ा। ईरान द्वारा मारे गए अपने भाई का बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर मुल्ला उमर ईरानी ने संघर्ष जारी रखा। ईरान सीमा से 45 मील (72 किमी) पूर्व में स्थित केच के कुलाहू में उमर का परिसर 25 नवंबर, 2013 को पहले ईरानी मिसाइल हमले का लक्ष्य था। बाद में ईरान के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए मुल्ला उमर ईरानी ने अपने सिपह-ए-रसूल अल्लाह को जुनदुल्लाह के साथ मिला दिया, जिसका नेतृत्व अब्दुल मलिक रिगी नामक युवक कर रहा था, जो मौलूक के प्रभाव में

राजधानी जाहेदान में फौसी दे दी गई। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा रिगी के भाई की गिरफ्तारी और उसे सौंपे जाने से जुनदुल्लाह पर कोई असर नहीं पड़ा। अक्टूबर 2009 में इस आतंकी समूह ने पाकिस्तान के साथ ईरान की सीमा के पास पिशिन में एक घातक बमबारी की, जिसमें ईरानी रिजोव्युशनरी गार्ड के छह कमांडरों सहित 43 लोग मारे गए। इसके बाद पहली बार ईरान ने खुले तौर पर जुनदुल्लाह और अब्दुल मलिक रिगी का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान और पश्चिम को दोषी ठहराया। फरवरी 2010 में तेहरान ने अब्दुल मलिक रिगी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया जब वह दुबई से किर्गिस्तान की उड़ान पर था। उसे उसी वर्ष जून में फौसी दे दी गई थी। इसके बाद जुनदुल्लाह ने फरवरी 2010 से 2011 तक अल-हज मोहम्मद ६ गिरि बलूच के नेतृत्व में अपनी गतिविधियां जारी रखीं। धाहिर के तहत, इस आतंकी समूह ने जुलाई 2010 में हुए बम विस्फोटों की जिम्मेदारी ली, जिसमें सिस्तान-ओ-बलूचिस्तान में स्थित ईरान के जाहेदान की एक मस्जिद में शिया समुदाय के 20 से अधिक सदस्य मारे गए थे। इसी तरह के हमलों ने दिसंबर 2010 और अक्टूबर 2012 में चाबहार में कई शिया मुसलमानों को निशाना बनाया। हालांकि समय के साथ, जुनदुल्लाह ने अपनी ताकत में गिरावट का अनुभव किया। उसी समय, तुर्बत स्थित मुल्ला उमर ईरानी ने समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर 2012 में जैश अल-अदल की नींव रखी, जो अब पाकिस्तान और ईरान के बीच अविश्वास का स्रोत बन गया है।

# आतंकवादियों पर इस्लामाबाद की निष्क्रियता, घरेलू दबाव ने ईरान को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए किया मजबूर



दोनों मुस्लिम देशों ने एक-दूसरे के क्षेत्र में शत्रुवादी टिकानों पर बमबारी की, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को शांतिदूतों की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित होना पड़ा। यहां उन अंतर्निहित कारणों पर एक नजर डाली गई है जिनके कारण संघर्ष शुरू हुआ। रॉयटर्स ने तीन स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि पाकिस्तान पर ईरानी हमला देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों से प्रेरित था, न कि उसकी मध्य पूर्व महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए। ईरान ने मंगलवार को सुन्नी आतंकवादी समूह जैश अल-अदल को निशाना बनाया। शिया बहुल देश का दावा है कि समूह का इस्लामिक स्टेट से संबंध है क्योंकि इसके कई आतंकवादी अब खत्म हो चुके, आईएसआईएस से जुड़े जुनदुल्लाह का हिस्सा थे। यह भड़कना ईरान और पाकिस्तान के बीच अलगाववादी समूहों और दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों से सक्रिय इस्लामी आतंकवादियों को

निभाने के लिए प्रेरित होना पड़ा। यहां उन अंतर्निहित कारणों पर एक नजर डाली गई है जिनके कारण संघर्ष शुरू हुआ। रॉयटर्स ने तीन स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि पाकिस्तान पर ईरानी हमला देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों से प्रेरित था, न कि उसकी मध्य पूर्व महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए। ईरान ने मंगलवार को सुन्नी आतंकवादी समूह जैश अल-अदल को निशाना बनाया। शिया बहुल देश का दावा है कि समूह का इस्लामिक स्टेट से संबंध है क्योंकि इसके कई आतंकवादी अब खत्म हो चुके, आईएसआईएस से जुड़े जुनदुल्लाह का हिस्सा थे। यह भड़कना ईरान और पाकिस्तान के बीच अलगाववादी समूहों और दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों से सक्रिय इस्लामी आतंकवादियों को

लेकर लंबे संघर्ष का परिणाम था। वे अक्सर सरकारी ठिकानों पर हमला करते हैं और दोनों देश एक-दूसरे पर रक्तपात में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। यूरोशिया ग्रुप के एक विश्लेषक ग्रेगरी ब्लू ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान के हमले आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली घरेलू हिंसा पर उसकी चिंताओं के कारण शुरू हुए थे। इस्लामिक स्टेट द्वारा ईरान में 3 जनवरी को किए गए हमले के कुछ दिनों बाद यह भड़क उठी है। उन्होंने कहा कि ईरानी नेतृत्व कुछ करने के घरेलू दबाव का जवाब दे रहा है। ईरान ने कहा कि वह अपने लोगों की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को लाल रखा मानता है। इसने पाकिस्तान से यह भी कहा कि वह अपनी धरती पर हथियारबंद आतंकवादियों को ठिकाना बनाने से रोके।

# होंगे विनाशकारी परिणाम! उत्तर कोरिया ने पानी के नीचे अब क्या खतरनाक खेल कर दिया



प्योंगयांग के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत, तीन देशों की नौसेनाओं ने अमेरिकी विमान वाहक कार्ल विसन के साथ बुधवार तक अपना तीन दिवसीय नियमित अभ्यास आयोजित किया। केंसीएनए ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान द्वारा इस सप्ताह के संयुक्त सैन्य अभ्यास के विरोध में उत्तर कोरिया ने अपने पानी के नीचे परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्लैडल-5-23 प्रणाली का परीक्षण, यह नाम उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु-सक्षम पानी के भीतर हमला करने वाले ड्रोंनों को दिया

है। रक्षा मंत्रालय के थिंक टैंक द्वारा उसके पूर्वी तट के पानी में किया गया था। मंत्रालय के अनाम प्रवक्ता ने संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान पर सैन्य अभ्यास से उन्मत्त होने का आरोप लगाते हुए विनाशकारी परिणामों की चेतावनी दी। प्योंगयांग के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों के

प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत, तीन देशों की नौसेनाओं ने अमेरिकी विमान वाहक कार्ल विसन के साथ बुधवार तक अपना तीन दिवसीय नियमित अभ्यास आयोजित किया। उत्तर कोरियाई मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, हमारी सेना की पानी के भीतर परमाणु आधुनिक जवाबी कार्रवाई को और अधिक मजबूत किया जा रहा है और इसकी विभिन्न समुद्री और पानी के नीचे की प्रतिक्रियाशील कार्रवाइयां अमेरिकी और उसके सहयोगियों की नौसेनाओं के शत्रुपूर्ण सैन्य युद्धाभ्यास को रोकना जारी रखेंगी। उत्तर कोरियाई राज्य टेलीविजन ने पिछले वायुमंडलीय विस्फोट परीक्षणों को प्रसारित किया है, जिनकी निगरानी अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों द्वारा की गई है, लेकिन रिपोर्ट किए गए पानी के नीचे के हथियार की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। बाद में शुक्रवार को दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने उत्तर के हालिया श्रृंखलाबद्ध हथियारों के परीक्षणों के खिलाफ चेतावनी जारी की और तत्काल रोकने का आह्वान किया।

# बोइंग कार्गो विमान में हवा में आग लग गई, मियामी हवाई अड्डे पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर असत्यापित वीडियो में उड़ान के दौरान विमान के बाएं पंख से आग की लपटें निकलती दिखाई दे रही हैं। इसमें शामिल विमान बोइंग 747-8 था जो चार जनरल इलेक्ट्रिक लम्ब-इंजनों द्वारा संचालित था। एटलस एयर के एक मालवाहक विमान को अमेरिका के मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, क्योंकि प्रस्थान के तुरंत बाद उसके इंजन में हवा में आग लग गई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एटलस एयर के एक बयान के हवाले से कहा कि चालक दल ने सभी मानक प्रक्रियाओं का पालन किया और सुरक्षित रूप से एमआईए लैंडिंग करी। कार्गो कंपनी ने आगे कहा कि वह गुरुवार रव रात हुई घटना का कारण निर्धारित करने के लिए निरीक्षण करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर असत्यापित वीडियो में उड़ान के दौरान विमान के बाएं पंख से आग की लपटें निकलती दिखाई दे रही हैं। इसमें शामिल विमान बोइंग 747-8 था जो चार जनरल इलेक्ट्रिक लम्ब-इंजनों द्वारा संचालित था। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि घटना के बाद, आपातकालीन वाहनों ने प्रतिक्रिया दी और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इस समाचार के प्रकाशन के समय जहाज पर चालक दल की सटीक

संख्या स्पष्ट नहीं थी। कुछ दिन पहले, कैलिफोर्निया जाने वाली जेटब्लू की उड़ान में आग लगने की सूचना के बाद न्यूयॉर्क के जॉर्ज एच कैंनेडी हवाई अड्डे के रनवे से उड़ान रद्द करनी पड़ी थी। विमान लगभग 8रू30 बजे प्रस्थान की तैयारी कर रहा था जब चालक दल ने नियंत्रण टावर को आग की लपटों से अवगत कराया जिसके बाद सभी 180 यात्रियों को बाहर निकाला गया ताकि अग्निशमन अधिकारी आग की लपटों को बुझा सकें और संभावित तकनीकी गड़बड़ियों को रोका जा सके।

कनाडा को जबर्न वसूली की जांच में मदद करेगा भारत, उच्चायुक्त बोले- औपचारिक अनुरोध की जरूरत

# दक्षिण कोरिया ने पानी में परमाणु हमला करने वाले ड्रोन का किया परीक्षण

यह कथित ड्रोन परीक्षण ऐसे वक्त में किया गया है जब कुछ ही दिन पहले देश के नेता किम जोंग उन ने कहा था कि उनका देश अब दक्षिण कोरिया के साथ सुलह का प्रयास नहीं करेगा। [सियोल] उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा कि उसने इस सप्ताह दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के संयुक्त नौसैन्य अभ्यास के जवाब में पानी में परमाणु हमले करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने अपने दुश्मन देशों पर क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का आरोप भी लगाया है। यह कथित ड्रोन परीक्षण ऐसे वक्त में किया गया है जब कुछ ही दिन पहले देश के नेता किम जोंग उन ने कहा था कि उनका देश अब दक्षिण कोरिया के साथ सुलह का प्रयास नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने युद्ध में विभाजित देशों के बीच साझा राष्ट्र के विचार को खत्म करने के लिए उत्तर कोरिया के संविधान को फिर से लिखने का आह्वान किया। देश की सेना ने कहा कि उसने यह परीक्षण देश के पूर्वी जलक्षेत्र में किया और तीन देशों के साझा नौसैन्य अभ्यास के जवाब में किया। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हमारी सेना की जल के भीतर परमाणु-आधारित जवाबी कार्रवाई को और अधिक मजबूत किया जा रहा है और इसकी जल के भीतर तथा समुद्री कार्रवाइयों अमेरिका और उसके सहयोगियों की नौसेनाओं के शत्रुपूर्ण सैन्य युद्धाभ्यास को रोकना जारी रखेंगी।

यह कथित ड्रोन परीक्षण ऐसे वक्त में किया गया है जब कुछ ही दिन पहले देश के नेता किम जोंग उन ने कहा था कि उनका देश अब दक्षिण कोरिया के साथ सुलह का प्रयास नहीं करेगा। [सियोल] उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा कि उसने इस सप्ताह दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के संयुक्त नौसैन्य अभ्यास के जवाब में पानी में परमाणु हमले करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने अपने दुश्मन देशों पर क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का आरोप भी लगाया है। यह कथित ड्रोन परीक्षण ऐसे वक्त में किया गया है जब कुछ ही दिन पहले देश के नेता किम जोंग उन ने कहा था कि उनका देश अब दक्षिण कोरिया के साथ सुलह का प्रयास नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने युद्ध में विभाजित देशों के बीच साझा राष्ट्र के विचार को खत्म करने के लिए उत्तर कोरिया के संविधान को फिर से लिखने का आह्वान किया। देश की सेना ने कहा कि उसने यह परीक्षण देश के पूर्वी जलक्षेत्र में किया और तीन देशों के साझा नौसैन्य अभ्यास के जवाब में किया। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हमारी सेना की जल के भीतर परमाणु-आधारित जवाबी कार्रवाई को और अधिक मजबूत किया जा रहा है और इसकी जल के भीतर तथा समुद्री कार्रवाइयों अमेरिका और उसके सहयोगियों की नौसेनाओं के शत्रुपूर्ण सैन्य युद्धाभ्यास को रोकना जारी रखेंगी।



इरान पर हमले से पहले पाकिस्तान ने वाशिंगटन से किया था परामर्श? अमेरिका ने दिया ये जवाब

मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया कि मेरे पास पढ़ने के लिए कोई विशेष बातचीत नहीं है। इसके बाद मिलर से पूछा गया कि क्या अमेरिका मध्य पूर्व संकट को रोकने के लिए किसी बातचीत की उम्मीद करता है, जिसने इजराइल-हमास युद्ध के कारण हमले से ही तनावपूर्ण वैश्विक परिदृश्य को और बढ़ा दिया है। मिलर ने दोहराया कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमले शुरू करने से पहले इराक या पाकिस्तान द्वारा वाशिंगटन से परामर्श करने के संबंध में एक सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया, जिसमें सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में कम से कम नौ लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश महिला और बच्चे थे। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से पूछा गया कि क्या ईरान के हमलों का मुकाबला करने के बारे में सुझाव मांगने के लिए अमेरिका और इराक या पाकिस्तान के बीच कोई राजनयिक जुड़ाव था। मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया कि मेरे पास पढ़ने के लिए कोई विशेष बातचीत नहीं है। इसके बाद मिलर से पूछा गया कि क्या अमेरिका मध्य पूर्व संकट को रोकने के लिए किसी बातचीत की उम्मीद करता है, जिसने इजराइल-हमास युद्ध के कारण पहले से ही तनावपूर्ण वैश्विक परिदृश्य को और बढ़ा दिया है। मिलर ने दोहराया कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। मैथ्यू मिलर ने आगे कहा कि अमेरिका हमेशा क्षेत्र (मध्य पूर्व का संदर्भ) में शांति और सुरक्षा बनाए रखना चाहता है जो कि 7 अक्टूबर (इजरायल पर हमास के हमले का संदर्भ) के बाद से हमारे राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु रहा है। मिलर ने कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व में एक गतिशील गतिविधि सामने आई है। उन्होंने लाल सागर में जहाजों पर हमला करने वाले यमन स्थित हथियार और समूह पर अमेरिका के जवाबी हमले, हिजबुल्लाह और इजराइल के हमलों का आदान-प्रदान, और अब ईरान और पाकिस्तान के जैसे को तैसा आदान-प्रदान का उल्लेख किया।

## दुबे के आक्रामक अर्धशतक के बावजूद मुंबई 251 पर आउट

हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला में प्लेयर आफ द सीरीज बने दुबे शानदार फॉर्म में दिखे। केरल के लिये गोपाल ने 18 . 4 ओवर में 28 रन देकर चार विकेट लिये जबकि बासिल थम्पी और जलज सक्सेना को दो दो विकेट मिले। तिरुवनंतपुरम। भारतीय हरफनमौला शिवम दुबे ने अपना शानदार फॉर्म घरेलू सर्किट में भी जारी रखते हुए आक्रामक अर्धशतक जमाया लेकिन श्रेयस गोपाल के चार विकेट के दम पर केरल ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी के मैच में मुंबई को 251 रन पर आउट कर दिया। दुबे ने अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के समेत 72 गेंदों में 51 रन बनाये। उनके अलावा भूपेन लालवानी



(63 गेंदों में 50 रन) और तनुष कोटिया (105 गेंदों में 56 रन) ने भी अर्धशतक जमाये। लालवानी और दुबे मुंबई को 200 रन के पार ले गए जबकि कोटिया ने 250 के पार पहुंचाया। हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला में प्लेयर आफ द सीरीज बने दुबे शानदार फॉर्म

(नाबाद 47) के साथ 79 रन की अटूट साझेदारी के दम पर बंगाल ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ चार विकेट पर 206 रन बना लिये। डिब्रूगढ़ में असम ने आंध्र को 188 रन पर आउट कर दिया और पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 43 रन बना लिये। आंध्र के लिये शोएब मोहम्मद खान ने 63 और नीतिश कुमार रेड्डी ने 49 रन बनाये। आंध्र के सात विकेट 70 रन पर गिर गए थे जिसके बाद इन दोनों ने सातवें विकेट के लिये 113 रन जोड़े। असम के लिये राहुल सिंह ने 46 रन देकर छह विकेट लिये जबकि मुख्तार हुसैन और आकाश सेन गुप्ता को दो दो विकेट मिले। ग्रुप बी का चौथा मैच मेरठ में उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच हो रहा है लेकिन खराब मौसम के कारण पहले दिन का खेल नहीं हो सका।

## रणजी ट्रॉफी में रनों के लिए तरसते दिखे अजिंक्य रहाणे, लगातार दो पारियों में हुए गोल्डन डक

रहाणे को इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के शुरूआती दो मुकाबले में नहीं चुना गया है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि वह भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। रणजी ट्रॉफी में उनके प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें वापसी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे पिछले कुछ

महीनों से टेस्ट टीम से बाहर चल रहे हैं। रहाणे को इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के शुरूआती दो मुकाबले में नहीं चुना गया है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि वह भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। रणजी ट्रॉफी में उनके प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें वापसी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। रहाणे मुंबई के लिए लगातार दो पारियों में खाता नहीं खोल पाए। रहाणे रणजी सीजन के पहले मैच में बिहार के खिलाफ नहीं खेल पाए थे। उसके बाद दूसरे मुकाबले में आंध्र प्रदेश के खिलाफ उन्हें एक पारी में बल्लेबाजी का मौका मिला था। ये पहली पारी में खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए थे। नीतीश रेड्डी ने उन्हें पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था। मुंबई ने मैच को 10 विकेट से जीत लिया।



एसे में उन्हें दूसरी पारी में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि रहाणे आंध्र के खिलाफ अपने प्रदर्शन को मुलाकर तीसरे मुकाबले में बड़ी पारी खेल पाएंगे। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ, वह सीजन के तीसरे मुकाबले में केरल के खिलाफ पहली पारी में शून्य पर पवेलियन लौट गए। इस बार बासिल थम्पी ने उन्हें पहली ही गेंद पर पवेलियन भेज दिया। लगातार दो गोल्डन डक के बाद उनकी वापसी की उम्मीदें भी धूमिल हो गई हैं।

## पाकिस्तान टीम में एक साथ 3 विदेशी कोच ने दिया इस्तीफा, जमठ में आए बड़े बदलाव ने थे नाखुश

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के बाद से ही टीम में आए बड़े बदलाव की कारण से विदेशी कोच नाखुश थे। जिसके बाद भिकी आर्थर, ग्रांट ब्राडबर्न और एंड्रयू पुटिक ने राष्ट्रीय टीम और बोर्ड के साथ अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इन दिनों वह एक बार फिर चर्चा में हैं, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के बाद से ही टीम में आए बड़े बदलाव की कारण से विदेशी कोच नाखुश थे। जिसके

बाद भिकी आर्थर, ग्रांट ब्राडबर्न और एंड्रयू पुटिक ने राष्ट्रीय टीम और बोर्ड के साथ अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। भारत में 50 ओवरों के विश्व कप के बाद उनके पोर्टफोलियो में बदलाव करके उन्हें राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दरअसल, खबरें सामने आई थी कि सभी कोच को उनके पद से हटाने का फैसला लिया जा चुका है। पीसीबी ने कप्तान चयनसमिति के बर्खास्त किया और कोच के साथ टीम डायरेक्टर में भी बदलाव किया। इन सभी खबरों के बीच अब बोर्ड ने इस बात को पक्का किया है कि तीनों विदेशी कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन तीनों के साथ गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल भारत में विश्व कप में पाकिस्तानी टीम के साथ थे। पाकिस्तान टूर्नामेंट में नॉकआउट चरण में भी नहीं पहुंच सका जिसके बाद पीसीबी प्रबंध समिति के प्रमुख जका अशरफ ने उन्हें एनसीए भेज दिया।



## रविचंद्रन अश्विन को भी मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण

सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी के बाद ऑफ स्पिनर आर अश्विन को भी अयोध्या में सोमवार को होने जा रहे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिला है। अश्विन को ये निमंत्रण चेन्नई में उनके निवास स्थान पर शुक्रवार को मिला है। भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी के बाद ऑफ स्पिनर आर अश्विन को भी अयोध्या में सोमवार को होने जा रहे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिला है। अश्विन को ये निमंत्रण चेन्नई में उनके निवास स्थान पर शुक्रवार को मिला है, जबकि शनिवार को वह इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। भारतीय टीम को 25 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट की सीरीज का आगाज करना है। इस सीरीज से पहले भारतीय टीम यहां 4 दिनों का अभ्यास कैंप आयोजित कर रही है। हालांकि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है और उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीसीसीआई से एक दिन की छुट्टी मांगी है, जिसे बोर्ड ने मान लिया है। वहीं अब उम्मीद जताई जा रही है कि अश्विन कार्यक्रम में आने के लिए वह बीसीसीआई से एक दिन की छुट्टी मांग सकते हैं। अश्विन को ये निमंत्रण तमिलनाडु बीजेपी की ओर से मिला है। राज्य के बीजेपी सचिव डॉ एसजी सूर्या और उपाध्यक्ष वेंकटरमन सी ने अश्विन को ये निमंत्रण पत्र सौंपा।



## आस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में तीन दिन के अंदर हराया

आस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को वेस्टइंडीज को 13वें ओवर में 120 रन पर आउट कर दिया जिससे उसे 26 रन का लक्ष्य मिला। स्टीव स्मिथ (11) और उस्मान ख्वाजा (9) ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। एडीलेड। जोश हेजलवुड ने एक टेस्ट पारी के पांच विकेट



जिसकी वजह से आस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को छह विकेट 73 रन पर निकाल दिये थे। इससे पहले वेस्टइंडीज के 188 रन के जवाब में आस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 283 रन बनाये थे। तीसरे दिन मिचेल स्टार्क ने जोशुआ डा सिल्वा (18) और अलजादी जोसेफ (16) को आउट किया जबकि हेजलवुड ने गुडाकेश मोती (तीन) को पवेलियन भेजा। वेस्टइंडीज के नौ विकेट 94 रन पर गिर गए थे और उसे पारी की हार से बचने के लिये एक रन की जरूरत थी। ऐसे में शामार जोसेफ और केमार रोच ने आखिरी विकेट के लिये 26 रन जोड़कर टीम को इस शर्मिंदगी से बचाया।

## जीत के साथ आगाज करने उतरेगा भारत, कल है बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच

युए में पांच बार की चैंपियन भारतीय टीम पहले दौर में एशियाई प्रतिद्वंद्वी से खेलेगी। इसके बाद आयरलैंड और अमेरिका से मुकाबले होंगे। भारत ने 2002 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में पहला खिताब जीता था। उसके बाद से 2008, 2012, 2018 और 2022 में भारत चैंपियन रहा। ब्लोमफोर्टेन। अंडर 19 विश्व कप के इतिहास की सबसे कामयाब गत चैंपियन भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ शनिवार को अपने अभियान का आगाज करेगी तो उदय सहारन की कप्तानी में उसका लक्ष्य इस परंपरा को आगे बढ़ाने का होगा। युए में पांच बार की चैंपियन



भारतीय टीम पहले दौर में एशियाई प्रतिद्वंद्वी से खेलेगी। इसके बाद आयरलैंड और अमेरिका से मुकाबले होंगे। भारत ने 2002 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में पहला खिताब जीता था। उसके बाद से 2008, 2012, 2018 और 2022 में

सिक्स में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल आउट और छह फरवरी को जबकि फाइनल 11 फरवरी को वेनोनी में होगा। भारतीय टीम राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में कई शिविरों के बाद यहां आई है और इसने दो ही टूर्नामेंट (एशिया कप और दक्षिण अफ्रीका में त्रिकोणीय श्रृंखला) खेले हैं। एशिया कप में भारत सेमीफाइनल में हार गया जिसमें बांग्लादेश ने उसे चार विकेट से मात दी। उसके बाद हालांकि दक्षिण अफ्रीका में त्रिकोणीय श्रृंखला भारत ने अपराजेय रहकर जीती जिसमें अफगानिस्तान तीसरी टीम थी। फाइनल बारिश की भेट होने से भारत और दक्षिण अफ्रीका संयुक्त विजेता रहे। भारतीय टीम में अश्विन कुलकर्णी

भी हैं जो आईपीएल में अनुभव पाने वाले इस टीम के दो खिलाड़ियों में से हैं। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग की खेज अश्विन ने टूर्नामेंट में नौ छक्के लगाये थे। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने अरावेली अश्विन के साथ करार किया है जिसने नवंबर में चार देशों की श्रृंखला में 93 गेंदों में 163 रन बनाये थे। पिछले साल कूच बेहार ट्रॉफी में प्लेयर आफ द टूर्नामेंट रहे मुशीर खान और कप्तान उदय सहारन पर भी नजरें होंगी। गेंदबाज राज लिम्बानी ने हाल ही में नेपाल के खिलाफ सात विकेट लिये थे जबकि उपकप्तान स्वामी पांडे ने अफगानिस्तान के खिलाफ छह विकेट चटकाये थे। टीमों में भारत रू उदय सहारन

(कप्तान), अश्विन कुलकर्णी, आदर्श सिंह, रूद्र मयूर पटेल, सचिन दास, प्रियंशु मेलिया, मुशीर खान, अरावेली अवनीश राव, स्वामी कुमार पांडे, मुरुगन अभिषेक, इनेश महाजन, नुष गौड़, आरव्य शुक्ला, राज लिम्बानी, नमन तिवारी। बांग्लादेश रू महफुजूर रहमान रबी (कप्तान), आशिकुर रहमान शिबली, जिशान आलम, आरिफुल इस्लाम, मोहम्मद शिबाब जेम्स, अहमर अमीन, शेख परवेज जिबोन, वासी सिद्दीकी, मारुफ एम, चौधरी मोहम्मद रिजवान, आदिल बिन सिद्दीक, मोहम्मद अशरफुज्जामन, मोहम्मद रफी उज्जामन रफी, रहमत दौला बोरसन, इकबाल हुसैन एमन। मैच का समय रू दोपहर 1.30 से।

## विंटर हेडेक से पाना है छुटकारा तो आजमाएं ये उपाय, जानें सर्दी में सिर दर्द भगाने का देसी नुस्खा

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। शीतलहर की चपेट में आने से सर्दी-जुकाम की समस्या हो रही है। ठंडी हवाएं लगने के बाद अक्सर तेज सिरदर्द की समस्या भी होने लगती है। ऐसे में बहुत से लोग दिनभर सिर पकड़े-पकड़े ही रह जाते हैं। विंटर हेडेक तब होता है, जब तापमान कम होने पर मस्तिष्क के नसों पर प्रभाव पड़ता है। इससे सिर में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होती है। ऐसे में आइए जानते हैं सर्दियों में हेडेक से बचने के घरेलू उपाय... ठंड में सिरदर्द के छुटकारा पाने के उपाय गर्म चीजों का करें सेवन ठंड में जब भी सिरदर्द करे तो गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन करें। हेडेक होने पर चाय या कॉफी पीना फायदेमंद हो सकता है। कैफीन के सेवन से मस्तिष्क को आराम मिलने की उम्मीद रहती है। यह मूड को बेहतर बनाने का काम भी करता है।



गुनगुने तेल से सिर की मालिश करें सर्दियों में सिरदर्द की समस्या होने पर गुनगुने तेल से सिर की मालिश कर सकते हैं। इससे मस्तिष्क के नसों को आराम मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। विंटर हेडेक होने पर यह समस्या काफी कारगर हो सकती है। फुल रेस्ट करें ठंड के मौसम में जब भी सिर में तेज दर्द हो, तब कुछ देर तक जाकर आराम करना

चाहिए। अच्छी नींद आने से मस्तिष्क को आराम मिलता है और सिरदर्द की समस्या दूर होती है। ऐसे में आराम करना नहीं भूलना चाहिए। हर्बल चाय पिएं हर्बल चाय भी सिरदर्द से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती है। ठंड में हेडेक से तुरंत आराम पाने के लिए तुलसी, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी से चाय बनाकर पीना फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटी

इंफ्लेमेटरी गुण दर्द से राहत दिलाने का काम करता है। हल्दी वाला दूध का सेवन हल्दी वाला दूध भी ठंड में सिरदर्द की समस्या से छुटकारा दिलाने का काम करता है। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सिडेंट जैसे गुण होते हैं, जो सिरदर्द को दूर करने का काम कर सकते हैं। इससे दिमाग को भी आराम मिलता है। थोड़ी देर एप में बैठना भी आरामदायक हो सकता है।

## सर्दियों में रोजाना एक अनार का जरूर करें सेवन, मिलेंगे स्वास्थ्य से जुड़े कई फायदे

अनार प्रोटीन, फाइबर, विटामिन-सी, विटामिन-के, फोलेट और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें कई शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट्स समेत कई अन्य खास तत्व भी मौजूद होते हैं। आहार और पोषण विशेषज्ञों की मानें तो लोगों के लिए रोजाना एक अनार खाना लाभदायक हो सकता है, जबकि छोटे बच्चों को इसका जूस बनाकर पिलाना चाहिए। आइए आज हम आपको इस स्वास्थ्यवर्धक फल को डाइट में शामिल करने के फायदे बताते हैं।



हड्डियों को मजबूती देने में है कारगर यह फल हड्डियों के घनत्व को नुकसान को रोकने में मदद करता है। क्यों कि इसमें पलेवोनोइड्स की मात्रा ज्यादा होती है। ये पलेवोनोइड शरीर की सूजन से लड़ते हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी हड्डियों की समस्या का कारण बन सकती है। इसके अलावा जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि अनार का अर्क

उन लक्षणों का प्रभाव भी कम करता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण सामने आते हैं। हृदय के लिए हो सकता है लाभदायक अनार में एंटी-ऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं, जिस कारण इसे हृदय के लिए अच्छा माना जाता है। इस फल के सेवन से अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। इसके अलावा अनार का सेवन करने

से एथेरोस्क्लेरोसिस होने की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है। बता दें कि घमनियों में वसा और कोलेस्ट्रॉल के जमा होने पर एथेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी होती है। तनाव को कम करने में भी है सहायक अनार शरीर से ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यह मनोवैज्ञानिक तनाव को कम करने में भी मदद कर सकता है। क्वीन मार्गरेट यूनिवर्सिटी द्वारा

किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से अनार का सेवन करते हैं, उनके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर कम होता है। यह तनाव का स्तर बढ़ाता है। इसलिए जब भी खुद को तनावपूर्ण महसूस करें तो अनार का सेवन जरूर करें। पाचन को सुधारने में है सहायक सर्दियों में कई लोग भारी खाद्य पदार्थ खाने लगते हैं जिन्हें पचना मुश्किल होता है।

# तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का ट्रेलर रिलीज, जम गई शाहिद कपूर-कृति सैनन की जोड़ी

शाहिद कपूर को पिछली बार फिल्म ब्लडी डेडी में देखा गया था। फिल्म में उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। अब अभिनेता अपनी अगली फिल्म तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया के साथ दर्शकों के बीच हाजिर होने वाले हैं। खास बात है कि इस फिल्म में पहली बार वह कृति सैनन के साथ इश्क फरमाते दिखेंगे। पिछले दिनों फिल्म के पोस्टर पर उनका रोमांटिक अंदाज देखने को मिला था। अब उनकी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। कृति इस फिल्म में एक रोबोट का किरदार निभा रही हैं, वहीं शाहिद एक वैज्ञानिक की भूमिका में दिख रहे हैं, जिन्हें रोबोट से प्यार हो जाता है। अब इस प्यार का अंजाम क्या होगा, यह तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कृति और शाहिद की जोड़ी आपको

यकीनन पसंद आने वाली है। ट्रेलर में दिग्गज अभिनेता एमिंड और डिंपल कपाडिया की झलक भी देखने को मिली है। निर्माताओं ने कुछ ही दिन पहले इस फिल्म का पहला गाना लाल पीली अखियां रिलीज किया था, जिसमें शाहिद और कृति की जबरदस्त केमिस्ट्री देखी गई थी। इतना ही नहीं दोनों का शानदार डांस भी इसमें देखने को मिला था। गाने में नीले रंग की साड़ी में कृति बेहद खूबसूरत लग रही थीं। यह एक पार्टी सॉन्गा है, जो झूमने पर मजबूर करता है। इसे रोमी और तनिष्क ने मिलकर गाया है, वहीं शोख जानी बाशा ने कोरियोग्राफी की है। बता दें कि अमित जोशी और आराधना साह ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है, वहीं फिल्म के निर्माता दिनेश विजान, ज्योति देशपांडे और लक्ष्मण उतेकर



हैं। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया इसी साल फरवरी में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। वैंलेंटाइन वीक के मौके यह पर्दे पर धमाल मचाएगी। फिल्म 9 फरवरी को रिलीज होगी। शाहिद और कृति दोनों की ही फैन फॉलोइंग अच्छी है। अब देखना होगा कि पर्दे पर ये जोड़ी क्या कमाल दिखाती है। शाहिद निर्माता वाशु भगनानी की अगली फिल्म में नजर आएंगे, जो महाभारत पर आधारित होगी। इसमें वह अश्वत्थामा की भूमिका निभाने वाले हैं। वह फिल्म देवा को लेकर भी चर्चा में हैं, जिसमें वह पुलिसवाले बने हैं। रोशन एंजुज इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। उधर कृति जहां दो पत्नी से बतौर निर्माता अपनी पारी शुरू कर रही हैं, वहीं करीना कपूर संग उन्हें फिल्म द क्रू में भी देखा जाएगा। मीना कुमारी की बायोपिक भी उनके पास है।

# नागार्जुन, वेंकटेश ने धनुष की कैंपेन मिलर का तेलुगु थियेट्रिकल ट्रेलर लॉन्च किया

अरुण मधेश्वरन के निर्देशन में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुपरस्टार धनुष की बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्म कैंपेन मिलर 25 जनवरी को एशियन मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और सुरेश प्रोडक्शंस के माध्यम से तेलुगु राज्यों में भव्य रिलीज के लिए तैयार है। संक्रांति के मौके पर 12 जनवरी को सिनेमाघरों में आई इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर खबरें मिलीं। इस बीच, तेलुगु ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। किंग नागार्जुन और विक्रंटी वेंकटेश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नाटकीय ट्रेलर लॉन्च किया। कैंपेन मिलर का

ट्रेलर धनुष को मुख्य भूमिका में पेश करता है और हमें ब्रिटिश शासन के तहत भारत में स्वतंत्रता-पूर्व युग में ले जाता है। धनुष एक स्थानीय विद्रोही नेता के रूप में दिखाई दिए, जो उन उपनिवेशवादियों का सामना कर रहे थे जो उनके गांव को लूटने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अंग्रेजों द्वारा डाकू और स्थानीय लोगों द्वारा देशद्रोही करार दिया गया। वीडियो से पता चलता है कि धनुष की हरकतें दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती हैं। धनुष अलग-अलग अवतार में नजर आए और उन्होंने जबरदस्त

परफॉर्मेंस दी। उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर उठाया, प्रियंका मोहन ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई है, जबकि ट्रेलर में संदीप किशन और जॉ. शिवा राजकुमार भी नजर आ रहे हैं। अरुण मधेश्वरन ने कहानी को दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत किया और धनुष को पहले कभी नहीं देखे गए तीव्र और एक्शन अवतार में दिखाया। सिद्धार्थ नुनी का कैमरा वर्क सराहनीय है, जबकि जीवी प्रकाश कुमार ने अपने जबरदस्त स्कोर के साथ दृश्यों को पूरक बनाया है। यह हाई-बजट मनोरंजक फिल्म टी. जी. द्वारा प्रस्तुत की गई है। सत्य ज्योति फिल्म्स के त्यागराजन और संधिल त्यागराजन और अर्जुन त्यागराजन द्वारा निर्मित। उत्पादन मूल्य मानक में उच्च हैं। फिल्म जी सरवनन और साई सिद्धार्थ द्वारा सह-निर्मित है। कुल मिलाकर, ट्रेलर कैंपेन मिलर के लिए गंद तैयार करता है। टी रामलिंगम प्रोडक्शन डिजाइनर हैं। बाहुबली फ्रेंचाइजी, आरआरआर और पुष्पा जैसी फिल्मों के लिए काम करने वाले मदन कार्की ने फिल्म के तमिल संस्करण के लिए संवाद लिखे हैं। नागूरन संपादक हैं।

# अनन्या पांडे ने लगाया ग्लैमरस अदाओं का तड़का, ब्लैक शार्ट ड्रेस में बरपाया कहर

अनन्या पांडे हर दिन लगातार किसी न किसी कारण खबरों में बनी हुई हैं। उन्हें कई बड़ी फिल्मों के लिए कास्ट किया जा रहा है, इसके अलावा एक्ट्रेस अपनी लव लाइफ और ग्लैमरस अंदाज की वजह से भी हर दिन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती हैं। ऐसे में अनन्या के चाहने वालों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। फैंस उनकी एक झलक के लिए बेताब रहते हैं। इस बार फिर से अनन्या

अपने नए लुक के कारण चर्चा में आ गई हैं। कुछ देर पहले ही अनन्या पांडे ने अपने ग्लैमरस लुक को फ्लॉन्ट करते हुए कैमरे के सामने किलर पोज दिए हैं। उन्होंने इस फोटोशूट के दौरान ब्लैक ऑफ शोल्डर मिनी ड्रेस कैरी की है। अनन्या ने अपने इस लुक को सटल बेस, न्यूड र्लॉसी लिप्स और शाइनी स्मोकी आई मेकअप से कॉप्लिट किया है। इस लुक के साथ उन्होंने हेयरस्टाइल के



लिए बालों को वेवी टच देकर ओपन रखा है। अनन्या हमेशा की तरह इस लुक में भी स्टनिंग दिख रही हैं। फैंस की नजरें उनकी अदाओं पर टिकी रह गई हैं। बता दें कि इस लुक में एक्ट्रेस बीती रात अपनी फिल्म खो गए हम कहां की सक्सेस पार्टी में शरीक होने के लिए पहुंची थीं। यहां फिल्म के मेकर्स जोया अख्तर सहित पूरी स्टार कास्ट भी मौजूद थी। बता दें कि हाल ही में उनकी यह फिल्म रिलीज की गई है। दूसरी ओर अनन्या के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इस समय उनके पास कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। जल्द ही अनन्या को कंट्रोल टाइटल से बन रही फिल्म में देखा जाने वाला है। इसके बाद वह वेब सीरीज कॉल मी बे में भी नजर आ सकती हैं। वैसे, अनन्या के चाहने वाले तो उन्हें हर अंदाज में पर्दे पर देखने के लिए बेताब रहते हैं।

# किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था,

नयनतारा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने एक लंबा-चौड़ा नोट लिखकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर माफी मांगी। इसी के साथ अभिनेत्री साफ किया कि उनका और उनकी टीम का किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अभिनेत्री नयनतारा इन दिनों अपनी तमिल फिल्म शन्नपूर्णानीरु द गॉडसे ऑफ कूडर को लेकर चर्चा में हैं। बता दें, अभिनेत्री की ये फिल्म विवादों में घिरी हुई है। दरअसल, फिल्म के एक सीन में भगवान राम को मांसाहारी बताया गया था, जिसके बाद विवाद छिड़ गया। लोगों ने अभिनेत्री और उनकी फिल्म पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए इसे एक शहदू विधोष फिल्म करार दिया।

# 12वीं फेल की अभिनेत्री मेधा शंकर हैं शाहरुख खान की बड़ी प्रशंसक, बताई अपनी पसंदीदा फिल्में

अभिनेत्री मेधा शंकर इस समय बॉलीवुड की असीम ऊंचाइयों को छू रही हैं। उन्हें पिछली बार विक्रान्त मैसी के साथ फिल्म 12वीं फिल्म में देखा गया था, जिसमें उनकी अदाकारी की खूब तारीफ हुई। 12वीं फिल्म की अपार सफलता के बाद मेधा की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन क्या आप जानता हैं मेधा बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान की बहुत बड़ी प्रशंसक



हैं? इस बात का खुलासा अभिनेत्री ने खुद किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, मेधा ने कहा, मैं शाहरुख सर की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो मेरी पसंदीदा फिल्मों में शामिल हैं। मैं अक्सर उनकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि शाहरुख एक अच्छे अभिनेता होने के साथ बहुत बेहतरीन व्यक्ति भी हैं। इसलिए ही लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। मेधा ने वेब सीरीज बीचम हाउस के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था, जो 2019 में रिलीज हुई थी। इसके बाद मेधा ने बॉलीवुड का रुख किया और वह 2021 में आई कीर्ति कुन्धारी की फिल्म शादीतान में नजर आईं। हालांकि, उन्हें दर्शकों के बीच पहचान 12वीं फेल से मिली है। मेधा 2021

# फाइटर से रिषभ साहनी की पहली झलक आई सामने, रितिक रोशन से होगी जबरदस्त भिड़ंत

सिद्धार्थ आनंद की मोस्ट अवेटेड फाइटर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा बटोर रही है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की एहम किरदार वाली फिल्म प्रत्याशा में जंची उड़ान भर रही है, इस फिल्म के मेकर्स हर दूसरे दिन प्रमोशन के लिए फिल्म से जुड़ी चीजे रिलीज करके उत्साह बढ़ा रहे हैं। अब, कुछ समय पहले, फाइटर की टीम ने फैंस को ऋ षम साहनी के भयंकर लुक वाले पोस्टर से परिचित कराया, जो फिल्म में एक खलनायक का किरदार निभाते नजर आएंगे। ऋ तिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ऋ षम साहनी का प्रभावशाली दिखने वाला पोस्टर शेयर किया है। वह फिल्म में एक दुर्जेय प्रतिपक्षी का किरदार निभाते नजर आएंगे और पैटी (ऋ तिक रोशन) के खिलाफ लड़ते हुए वह हाथ में गोली बंदूक और खून से लथपथ चेहरे के साथ बिल्कुल भयंकर दिख रहे हैं। आगामी हवाई कार्रवाई क्रूर सीन के साथ अपेक्षाओं को और भी अधिक बढ़ा देती है। पोस्टर को साझा करते हुए एक्टर ने लिखा, खलनायक से आँखें मिलाना। पोस्ट साझा किए जाने के कुछ मिनट बाद, फैंस फिल्म की सराहना करना बंद नहीं कर सके। पोस्ट पर रिप्लेट करते हुए, एक फैन ने लिखा, ट्रेलर बहुत पसंद आया, बड़े स्क्रीन पर फाइटर देखने का बेसब्री से इंतजार है, दुसरे ने कमेंट करते हुए लिखा, ओमग किलर लुक,

जबकि तीसरे ने लिखा, विलेन का अल्टीमेट लुक, और एक और ने कमेंट में लिखा, बहुत बढ़िया खलनायक। इसके अलावा, फाइटर से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे ऋ षम ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्टर डाला और उस पर उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 5 जनवरी को मुलाकात होगी। तैयार रहना। प्त फाइटर ऑन 25 जनवरी दुनिया भर में रिलीज हो रही है। आईमैक्स 3डी में बड़ी स्क्रीन पर अनुभव



# बाक्स ऑफिस पर नहीं थम रही हनु मान की रफ्तार, छठे दिन कर डाली बंपर कमाई

तेजा सज्जा स्टार हनु मान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों की तरफ से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस सुपरहीरो फिल्म ने दर्शकों के दिल जीत लिया है। तभी साउथ की ये मूवी हर दिन कमाई कर रही है। 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म की बेहतरीन कमाई का सिलसिला छठे दिन भी जारी है। तो आइए जानते हैं कि तेजा सज्जा की इस मूवी ने रिलिज के छठे दिन पर कितनी कमाई की...ओपनिंग डे पर 8.05 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली इस सुपरहीरो फिल्म की कमाई में तेजी से उछाल देखा जा रहा है। इसी के साथ ये फिल्म साल 2024 की पहली हिट फिल्म बन गई है। वहीं अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का लेटेस्ट रिपोर्ट भी सामने आ गया है। तो आइए जानते हैं बुधवार को फिल्म ने कितने करोड़ रुपये का बिजनेस किया...रिपोर्ट के मुताबिक हनुमान ने रिलीज के छठे दिन पर 11.50 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है।



इसी के साथ फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 80.46 करोड़ रुपये हुआ है। हनु मान की रफ्तार को देखकर यही लग रही है कि वीकेंड पर ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। वहीं इन आंकड़ों को देखने के बाद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तेजा की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई

रिकॉर्ड तोड़ने और बनाने वाली है। वहीं हनु मान के साथ बॉक्स ऑफिस पर कई सारी साउथ की फिल्मों का क्लेश हुआ था। लेकिन कमाई के मामले में हनु मान ने सभी को पछाड़ दिया। बता दें कि हनु मान के साथ कैंपेन मिलर, मैरी क्रिसमस, गुंदू काम और अयलान जैसी फिल्में रिलीज हुई थीं। लेकिन तेजा की मूवी सभी को कड़ी टक्कर देते हुए आगे निकले गई है। बता दें कि हनु मान तेलुगु, हिंदी, मराठी, तमिल कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी, स्पॅनिश कोरियाई, चीनी और जापानी सहित 11 भाषाओं में रिलीज हुई है। 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में तेजा सज्जा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी और विनय राय अहम किरदार में नजर आ रहे हैं।

# भूमि पेडनेकर की भक्षक का टीजर जारी, नेटफिलक्स पर होगा प्रदर्शन



भूमि पेडनेकर एक बार बिल्कुल तैयार है। इस बार फिर नए अंदाज में दर्शकों के सामने पेश होने के लिए ड्रामा फिल्म भक्षक के साथ

सच्ची घटना लेकर आ गई हैं। डायरेक्टर पुलकित के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर लंबे समय से काफी चर्चा बनी हुई है। अब आखिरकार दर्शकों की उत्सुकता को बढ़ाते हुए मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें भूम एक खोजी पत्रकार के रूप में नजर आ रही हैं। इसमें वह महिलाओं के साथ हो रहे एक जघन्य अपराध को पूरी दुनिया के सामने उजागर लाती है। नेटफिलक्स ने भक्षक की रिलीज डेट का ऐलान करते हुए एक दमदार टीजर रिलीज कर दिया है। इसमें भूमि वैशाली सिंह नाम की पत्रकार के किरदार में नजर आ रही हैं। टीजर की शुरुआत होती है मुनवरपुर की उस खबर से जहां एक चाइल्ड सेंटर होम की बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वैशाली तक जब यह बात पहुंचती है तो वह उन छोटी-छोटी बच्चियों को

उसे फिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यही सब इस फिल्म में देखने को मिलेगा। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के बैनर तले बनी भक्षक की नेटफिलक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा। फिल्म का प्रीमियर 9 फरवरी से होने जा रहा है। नेटफिलक्स ने टीजर को साझा किया है। कैंपेन में लिखा, एक ऐसी पत्रकार की कहानी, जो सच्चाई को उजागर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।

सच्ची घटनाओं से प्रेरित भक्षक नेटफिलक्स पर आ रही है। गौरतलब है कि फिल्म में भूमि पेडनेकर के अलावा संजय मिश्रा, आदित्य श्रीवास्तव और साई ताम्हणकर जैसे सितारों को भी अहम किरदारों में देखा जा रहा है। टीजर में तो सभी कलाकार अपने-अपने किरदारों को बखूबी निभाते दिख रहे हैं, लेकिन फिल्म कैसा कमाल दिखा पाएगी इसका खुलासा तो वक्त के साथ ही हो पाएगा।

# विद्युत जामवाल की क्रेक का पहला गाना दिल झूम जारी, नोरा फतेही संग जमी जोड़ी

विद्युत जामवाल को आखिरी बार अनुपम खेर के साथ फिल्म आईबी71 में देखा गया था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। विद्युत पिछले कुछ समय से अपनी आगामी स्पोर्ट्स-एक्शन फिल्म क्रेक को लेकर चर्चा में हैं। इसमें उनकी जोड़ी नोरा फतेही के साथ बनी है, जिसे पहली बार देखा जाएगा। अब निर्माताओं ने क्रेक का पहला गाना दिल झूम जारी कर दिया है, जिसमें विद्युत और नोरा एक-दूसरे संग इश्क फरमाते नजर आ रहे हैं। दिल झूम को विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने मिलकर गाया है तो वहीं इस गाने के बोल गुरप्रीत सैनी ने लिखे हैं। क्रेक के निर्देशन की कमान आदित्य दत्त ने संभाली है। फिल्म का निर्माण विद्युत ने अपने होम प्रोडक्शन एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत किया है। इसमें अर्जुन रामपाल और एमी जैक्सन भी अहम भूमिकाओं में हैं। विद्युत और नोरा की यह फिल्म 23 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। विद्युत ने कहा कि यह ट्रैक, जो पाकिस्तानी सिंगर अली जफर के ट्रैक झूम का एक प्रस्तुतिकरण है, लगातार उनकी रोमांटिक प्लेलिस्ट में रहा है। इस बारे में बात करते हुए कि उन्होंने झूम को अपनी फिल्म का हिस्सा क्यों चुना, विद्युत ने साझा किया। झूम मेरी रोमांटिक प्लेलिस्ट में लगातार बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा, बीट एकदम सही लगता है, इसमें प्योर इमोशन है। यह गाना हमारे लिए आवश्यक सभी सही भावनाओं को समेटे हुए है, जो इसे क्रेक के लिए एकदम सही साउंडट्रैक बनाता है।



## मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अंतर्गत दिवंगत पत्रकार के परिजनों को मिली आर्थिक सहायता

देवरिया की असामयिक मृत्यु पर उनकी पत्नी निरंका मिश्र को उनके घर पर जाकर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अंतर्गत राहत राशि स्वरूप पाँच लाख रुपये का चेक प्रदान किया। सदर विधायक एवं जिलाधिकारी ने



शोक संवेदना व्यक्त की और

उन्हें हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। सदर विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पत्रकारों एवं उनके परिजनों के हर सुख-दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पांच लाख रुपये की राहत राशि प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त किया।

## देवरिया में एंटी करप्शन टीम का छापा शस्त्र लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार

देवरिया (उ०प्र०) देवरिया जिले में एंटी करप्शन टीम का छापा शस्त्र लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के महुई गांव निवासी दीनानाथ यादव का शस्त्र लाइसेंस खो गया था। इसके लिए उन्होंने शस्त्र लिपिक से संपर्क किया। शस्त्र लिपिक ने 10 हजार रूपए खर्चा पानी के एवज में मांगा। इसकी शिकायत दीनानाथ यादव ने एंटी करप्शन टीम गोरखपुर से की। टीम की योजना के अनुसार शुकवार को जैसे ही दीनानाथ ने शस्त्र लिपिक को 10 हजार रूपए की रिश्वत दी। त्यों ही एंटी करप्शन टीम ने शस्त्र लिपिक राजेश कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन की टीम कोतवाली में अग्रिम विधिक कार्यवाई के लिए ले गई है।

## रोड दुर्घटना में सिपाही की मौत

देवरिया (उ०प्र०) देवरिया जिले में कोतवाली देवरिया क्षेत्र में डायल 112 में तैनात सिपाही की ट्रक से दुर्घटना में मौत हो गई। यह सिपाही मूल रूप से गाजीपुर जिले के निवासी थे। यह और इनके साथ एक और व्यक्ति दोनो लोग सोनुघाट से देवरिया के तरफ जा रहे थे तभी सोनुघाट मोड़ से थोड़ा से आगे पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रैकर अनियंत्रित होकर इनकी गाड़ी को टक्कर मार दिया जिसमें सूत्रों के अनुसार सिपाही हरिश्चंद्र यादव की मौके पर ही मौत हो गई और एक सिपाही बुरी तरह घायल है जिसका इलाज हो रहा है। हर्षचंद्र यादव की पत्नी भी जिले में ही 112 में तैनात है।

## उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि के निदेशक का हमीरपुर में हुआ स्वागत

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि लखनऊ के निदेशक बनने के बाद जनपद हमीरपुर आए सहकार भारती उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री डा. प्रवीण सिंह जादौन का जनपद हमीरपुर के प्रवेश द्वार पर सहकार भारती एवं सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि यों द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि के द्वारा हमीरपुर में निर्माणधीन जेल आवासीय परिसर में भवन निर्माण का अवलोकन किया एवं ठेकेदार से समय से कार्य को पूरा करने को कहा इसके बाद सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधियों को बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. को शासन द्वारा निर्माण एजेन्सी की मान्यता प्रदान की गयी। संस्था मानकीकृत तथा राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में अधिकृत है। प्रदेश में 35 निर्माण प्रखण्डों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ निर्माण कार्य सम्पादित कराए जाते हैं। जनपद हमीरपुर में डूंग वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा है। निदेशक डा. प्रवीण सिंह जादौन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं, पिछड़ी जातियों अनुसूचित जातियों एवं निर्बल वर्ग के लोगों की आर्थिक उत्थान में अच्छा कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभात जेपीएस रावटे के प्रयास से प्रदेश में सहकारी समितियों में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने हेतु व्यापक सदस्यता अभियान चलाया। जिससे सभी समितियों में नए सदस्य बढ़ाए गए। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक लि हमीरपुर के उप समापति संजय गुप्ता, जिला विकास सहकार भारती के जिला अध्यक्ष रामभूत सिंह,

## विकास खण्ड स्तरीय वृहद रोजगार मेले में 151 प्रशिक्षणार्थियों का हुआ चयन,

संवाददाता। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तरीय वृहद रोजगार मेला उ०प्र० कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण केन्द्र जेतवारा रोड मानघाता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक विश्वनाथगंज जीत लाल पटेल द्वारा फीता काटकर रोजगार मेला का उद्घाटन व सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस दौरान विधायक विश्वनाथगंज जीत लाल पटेल, नगर पंचायत अध्यक्ष मानघाता बादल पटेल एवं एडीओ आईएसडी ब्लाक मानघाता राकेश कुमार द्वारा मेला में प्रतिभाग करने वाली कम्पनियों के स्टालों का अवलोकन किया गया। रोजगार मेला में उ०प्र० कौशल विकास मिशन एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना एवं आईटीआई के लगभग 290 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रतिभाग किया

तथा 185 प्रशिक्षणार्थियों ने साक्षात्कार दिया। नियोक्ता कम्पनी टाटा मोटर्स, वेल्सपन इण्डिया एवं रूचिता एसोशिएल द्वारा लगभग 151 प्रशिक्षणार्थियों को चयनित किया गया। इस अवसर पर विधायक विश्वनाथगंज जीत लाल पटेल ने कहा कि प्रदेश के विकास व गरीबों के उत्थान और युवाओं को रोजगार देने के लिये संकल्पित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है और लोगों को न केवल सरकारी विभागों में नौकरी बल्कि प्रदेश में भारी निवेश को आकर्षित करके रोजगार के नए-नए अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष मानघाता बादल पटेल ने कहा कि उ०प्र० कौशल विकास मिशन योजना से महिलायें भी प्रशिक्षण लेकर रोजगारध्वरोजगार में नियोजित होकर बेहतर जीवन-यापन कर रही हैं तथा परिवार की आर्थिक मदद करते हुये आत्मनिर्भर बनकर महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हैं। कार्यक्रम आयोजक नोडल

प्रधानाचार्य आईटीआईधजिला समन्वयक उ०प्र० कौशल विकास मिशन बी०बी० सिंह ने कहा कि उ०प्र० कौशल विकास मिशन भारत सरकार व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है इस योजना के माध्यम से युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करते हुये रोजगार पाने और आत्मनिर्भर बनने का मौका दे रही है। अच्छे कामगारों के अनुभव प्राप्त करने के बाद नियोक्ता कम्पनी उन्हे एवं उनके परिवार को बेहतर जीवनयापन हेतु अनेक सुविधायें भी उपलब्ध कराती है। अतिथियों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्ति पत्र व प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम आयोजन में वंदना सिहि, मृत्युंजय पाण्डेय जिला कौशल प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक रवीन्द्र पाण्डेय, राजकीय आईटीआई के स्टाफ मनोज सिंह, नागेंद्र सिंह, डा० रमेश अग्रहरी व उ०प्र० कौशल विकास मिशन में सभ्य अत्युत्कृष्ट तथा सभ्य प्रशिक्षण प्रदाता व नियोक्ता कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

## महाविद्यालय में वार्षिक क्रीडा समारोह का हुआ शुभारंभ

चित्रकूट। गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दो दिवसीय 28वें वार्षिक क्रीडा समारोह का शुक्रवार को मुख्य अतिथि एनडीएम न्यायिक जरीम खान ने शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने छात्र, छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल शिक्षा का अनिवार्य अंग है। इसलिए सभी शिक्षा के साथ खेल प्रतियोगिताओं में अवश्य प्रतिभाग करें। उन्होंने जीवन की चार अवस्थाओं का वर्णन करते हुए बताया कि महाविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, छात्राएं प्रायः किशोर अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यह अवस्था छात्र जीवन का स्वर्णिम समय होता है। जिसमें भविष्य के साथ समाज, प्रदेश और देश का भविष्य आधारित होता है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विनय कुमार चौधरी ने कहा कि खेल खेलना व्यक्ति के शारीरिक विकास के साथ मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा बौद्धिक विकास को सुदृढ़ करता है। उन्होंने छात्र, छात्राओं को खेल प्रतियोगिताओं में बढ़चढ़ कर प्रतिभागिता करने के लिए उत्साहित किया। क्रीडा प्रमारी डॉ. राकेश कुमार शर्मा ने प्रतिभागियों को खेल शिष्टाचार की शपथ दिलायी। कार्यक्रम का संचालन समारोहक डॉ. वंशगोपाल ने किया। इस अवसर पर प्राध्यापक डॉ. राजेश कुमार पाल, डॉ. राम नरेश यादव, डॉ. सीमा कुमारी, डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. अतुल कुमार कुशवाहा, डॉ. धर्मनंद सिंह, डॉ. हेमन्त कुमार बघेल, डॉ. नीरज गुप्ता, डॉ. आशुतोष कुमार शुक्ला, डॉ. गौरव पांडेय आदि मौजूद रहे।

## आत्म तत्व का बोध कराती है भागवत कथा- त्रिपाठी

चित्रकूट। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र से समस्त प्रकार के पापों का विनाश हो जाता है। जीव को आत्मतत्व का बोध होता है। अंतकाल में भगवान के परमधाम की प्राप्ति होती है। इस दिव्य महापुराण को जीवन में उतारने से सामाजिक गतिविधियों की कुशीतियों का तिरस्कार होकर जीवन सफल बन जाता है। यह विचार मुख्यालय स्थित नया बाजार धतुरहा चौराहा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन कथा व्यास जुगुलु किशोर त्रिपाठी ने व्यक्त किए। उन्होंने सती जी के पावन चरित्र में बताया कि भगवती सती के पिता ने कनखल में यज्ञ कराया। सभी देवताओं को आमंत्रित किया। भगवान शिव से वैर भाव के चलते दक्ष ने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। सती जी ने देखा कि देवताओं का विमान जा रहे हैं तो उन्होंने महादेव से पूछा कहां यज्ञ हो रहा है। बताया कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं। इस पर माता सती भगवान शिव से यज्ञ में जाने का आग्रह करती हैं। भोलेनाथ के मना करने के बाद भी जब सती यज्ञ में जाती है तो

## 51 किलो अवैध गांजा व एक क्रेटा कार के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

हमीरपुर। पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध एवं मादक पदार्थों के तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 18 जनवरी को थाना बिवांर पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर ग्राम महारा जाने वाली रोड पर निर्माणधीन टंकी के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी द्वारा हिकमल अमली से घेरघार कर चार पहिया कार सफेद रंग क्रेटा को पकड़ा था। जिसमें अभियुक्तगण किशन सिंह पुत्र मुख्तार सिंह निवासी आईडी कालोनी हीरापुर थाना टाटीवन

जनपद रायपुर छत्तीसगढ़ व शत्रुघन वर्मा पुत्र दुर्गाप्रसाद निवासी ग्राम वाक थाना सुमेरपुर जिला देवरिया के तस्करी के तलाशी लेने पर चार पहिया गाडी से एक एक किलो के कुल 51 पैकेटों में नाजायज गांजा (वजन 51 किलो ग्राम) बरामद हुआ एवं अभियुक्त किशन सिंह उपरोक्त के पास से एक अदद तमंचा नाजायज 12 बोर चालू हालत में व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर जिन्दा भी बरामद हुआ एवं जामा तलाशी से अभियुक्तगण के पास से कुल 25600 रुपये नगद व तीन अदद

मोबाइल फोन एन्ड्राइड बरामद हुये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना बिवांर में अभियोग पंजीकृत कर, वैधानिक कार्यवाही करते हुये चालान सम्बन्धित न्यायालय किया जा रहा है। गिरफ्तार हुये अभियुक्तों में किशन सिंह पुत्र मुख्तार सिंह निवासी आईडी कालोनी हीरापुर थाना टाटीवन जनपद रायपुर छत्तीसगढ़ व शत्रुघन वर्मा पुत्र दुर्गाप्रसाद निवासी ग्राम वाक थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर के विरुद्ध मुअसं. 20१2024 धारा 8१20 छवै (बज् व 3१25 ।। बज् के कब्जे से नाजायज गांजा 51 किलो ग्राम,

एक अदद तमंचा 12 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर एवं, तीन अदद एन्ड्राइड रुपये, तीन अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन बरामद हुये हैं बरामद गांजा व क्रेटा कार की कुल अनुमानित कीमत 29,00,00० रु० (29 लाख रुपये) है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रमारी निरीक्षक राकेश कुमार सरोज, उपनिरीक्षक गौरव चौधे, उपनिरीक्षक राजेश कुमार पाण्डेय, कांस्टेबल अजीत कुमार सुकेन्द्र सिंह, मनोज कुमार, राजेश कुमार यादव, हरिनन्द सिंह, महिल कांस्टेबल अंजुली सिंह शामिल रही।

## बहिगा की टीम 33 रनों से हुयी विजयी

हमीरपुर। इचौली के जय मां शीतला ग्राउंड में विराट क्रिकेट टूर्नामेंट में आज पांचवें दिन बहिगा महोबा व त्रिवेणी बांदा के मध्य खेला गया। जिसमें बहिगा ने टांस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बहिगा की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती तीन ओवर में दो रन पर तीन विकेट गवाने के पश्चात बल्लेबाज बेटा राम की शानदार 86 रनों की पारी की बढौलत 140 रनों के विशाल स्कोर खड़ा किया तथा निर्धारित 12 ओवर में आल आउट हो गई। 141 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी त्रिवेणी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शुरुआती तीन रनों पर दो विकेट गंवा दिए तथा नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे जिसके परिणाम स्वरूप टीम त्रिवेणी की टीम महज 11.3 ओवर में 107 रन पर आल आउट हो गई तथा बहिगा की टीम 33 रनों से विजयी हुई। बेटाराम की शानदार 86 रनों की पारी के लिए एवं दो विकेट हासिल किये। मैन आंफ द मैच का पुरस्कार समाजसेवी राजाराम की तरफ से दिया गया। कमेंट्रेटर अनुरुद्ध शुक्ला, जय सिंह यादव, पंकज शुक्ला एवं ऋषि तिवारी अम्पायर रहे। मुख्य अतिथि के रूप में कमेटी उपाध्यक्ष सतीश तिवारी, शिवम तिवारी (प्रबंधक) पंकज, कमलेश शुक्ला, अंकित बाजपेई, पवन, सोमजी तिवारी, सुंदरम पांडे, सिराज प्रजापति, श्यामू शुक्ला सहित आदि लोग उपस्थित रहे।

## मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल के अनुसार प्राप्त ग्रेडिंग पर की गयी समीक्षा

हमीरपुर। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल के अनुसार प्राप्त ग्रेडिंग के संबंध में एक आवश्यक बैठक जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डा. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक से अनुपस्थित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी मौदहा का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने व स्पष्टीकरण प्राप्त

करने के निर्देश दिए तथा कृषि विभाग में खराब प्रगति पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से प्राप्त विभिन्न विकास कार्याध्योजनाओं की प्रगति की रैकिंग व ग्रेडिंग के अनुसार विभागवार समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड योजना सरकार व आम जनता के

विश्वास को बनाये रखने के लिये लांच किया गया है। इसमें सभी सम्बन्धित विभागों की मासिक रैकिंग और ग्रेडिंग से प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। सभी विभाग प्रत्येक दशा में अपने द्वारा किये गये कार्यों एवं प्राप्त शिकायतों का निस्तारण पोर्टल पर समय से अवश्य फीड कर दें। जनपद की किसी भी पैरामीटर में रैंक प्रभावित न होने पाए इसके लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों का अच्छे ढंग से क्रियान्वयन किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन करने वाले विभिन्न विभागों यथा कृषि विभाग, ग्राम विकास विभाग,

उद्योग विभाग, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, विद्युत विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, पर्यटन पंचायती राज, बेसिक शिक्षा पशुपालन, प्रोजेक्ट अलंकार पीडब्ल्यूडी आदि की समीक्षा करते हुई प्रगति में सुधार करने के निर्देश दे। उन्होंने कहा कि प्रगति में सुधार न पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिल पंचायत राज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

## ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न

हमीरपुर। आज अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज व पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में थाना मझगांव पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत के धर्म गुरुओं, संत्रांत व्यक्तियों, व ग्राम चौकीदारों से वार्ता कर आगामी अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा व गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस के सहयोग की अपील की गई। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के दृष्टिगत थाना पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम की रूपरेखा तैयार की गई इसी प्रकार थाना बिवार पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत के धर्म गुरुओं, संत्रांत व्यक्तियों, व ग्राम चौकीदारों से वार्ताकर आगामी अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा व गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस के सहयोग की अपील की गई। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के दृष्टिगत थाना पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम की रूपरेखा तैयार की गई।

## सैंकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ आयी भागीदारी यात्रा का हुआ स्वागत

हमीरपुर। सैंकड़ों गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ भागीदारी यात्रा रथ लेकर कस्बे में पहुंचे पूर्व मंत्री व जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रथयात्रा का कस्बा सहित जगह जगह स्वागत करते हुये कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब, कांशीराम व ज्योतिबा फुले के विचारों को अपनाने की बात कही। रथयात्रा के नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने बुंदेलखंड के जालौन जनपद से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे के साथ भागीदारी यात्रा का शुभारंभ किया है। जो बुंदेलखंड के सभी सातों जनपदों में जाकर लोगों में जागरूकता लाने का काम करेगी। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भागीदारी यात्रा में खासी भीड़ उमड़ने पर उन्होंने कहा कि ये साफ संदेश दिख रहा है कि उनकी इस भागीदारी मुहिम पर उन्हें खासा समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि बाबू सिंह कुशवाहा के साथ चल रहे सैंकड़ों वाहनों के काफिले से कहीं न कहीं उमड़ रही भीड़ आगामी 2024 के चुनावों में जन अधिका पार्टी के इस क्षेत्र में दस्तक देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वो बाबा साहब, कांशीराम तथा ज्योतिबा फुले के विचारों के साथ लेकर जन अधिकार पार्टी के तत्वावधान में भागीदारी यात्रा निकाल रहे हैं।

## आमने सामने हाड़वे पर भिड़े डंपर चालक घायल

सुमेरपुर-हमीरपुर। नेशनल हाड़वे पर सीमेंट फैक्टरी के समीप ऑटो को बचाने में दो डंपर आमने-सामने टकरा गए। इस घटना में एक डंपर का चालक कोबिन में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसको पुलिस ने क्रेन मशीन की सहायता से निकाल कर एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया